



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

साप्ताहिक/Weekly

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 17] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 24—अप्रैल 30, 2004 (वैशाख 4, 1926)  
No. 17] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 24—APRIL 30, 2004 (VAISAKHA 4, 1926)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I--खण्ड-1--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	विषय-सूची	को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
भाग I--खण्ड-2--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	345	भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (iii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)
भाग I--खण्ड-3--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	*	भाग II--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
भाग I--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	463	भाग III--खण्ड-1--उच्च न्यायालयों, निवृत्तक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं
भाग II--खण्ड-1--अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*	भाग III--खण्ड-2--पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस
भाग II--खण्ड-1क--अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*	भाग III--खण्ड-3--मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं
भाग II--खण्ड-2--विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*	भाग III--खण्ड-4--विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं
भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (i)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*	भाग IV--गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस
भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों		भाग V--अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण

\*आंकड़े प्राप्त नहीं हैं।

## CONTENTS

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court . . . . .	345	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) . . . . .	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court . . . . .	403	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence . . . . .	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence . . . . .	*	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India . . . . .	355
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence . . . . .	463	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs . . . . .	2731
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations . . . . .	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners . . . . .	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations . . . . .	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies . . . . .	2161
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills . . . . .	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies . . . . .	127
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) . . . . .	*	PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi . . . . .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Regulations issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) . . . . .	*		

भाग I—खण्ड 1  
[PART I—SECTION 1]

[रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, 26 जनवरी 2004

सं. 22-प्रेज/2004--राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को उनकी अति असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए "परम विशिष्ट सेवा मेडल" प्रदान किए जाने का अनुमोदन करते हैं:--

1. आईसी-15492 लेफ्टि जनरल रंजीत सिंह नागरा, वीएसएम\*, तोपखाना।
2. आईसी-15690 लेफ्टि जनरल शान्तनु चौधरी, एवीएसएम, वीएसएम, तोपखाना।
3. आईसी-15831 लेफ्टि जनरल अरविन्द कुमार, एवीएसएम, कवचित।
4. आईसी-16033 लेफ्टि जनरल जितेन्द्र सिंह वर्मा, एवीएसएम, कवचित।
5. आईसी-16078 लेफ्टि जनरल जोगिन्द्र जसवंत सिंह, एवीएसएम, वीएसएम, इन्फैंट्री।
6. आईसी-16095 लेफ्टि जनरल जय भगवान सिंह यादवा, एवीएसएम, वीर चक्र, वीएसएम, इन्फैंट्री।
7. आईसी-16109 लेफ्टि जनरल हरि प्रसाद, एवीएसएम, वीएसएम, इन्फैंट्री।
8. आईसी-16234 लेफ्टि जनरल भूपिन्दर सिंह ठाकुर, एवीएसएम, कवचित।
9. आईसी-16313 लेफ्टि जनरल विनायक गोपाल पाटणकर, यूवाईएसएम, वीएसएम, तोपखाना।
10. आईसी-16542 लेफ्टि जनरल विजय कुमार जेटली, यूवाईएसएम, इन्फैंट्री।
11. आईसी-16543 लेफ्टि जनरल बलराज सिंह ठक्कर, वीएसएम, कवचित।
12. आईसी-16545 लेफ्टि जनरल गम्बीर सिंह नेगी, एवीएसएम\*, वीएसएम, इन्फैंट्री।
13. आईसी-16783 लेफ्टि जनरल तेज प्रताप सिंह बरार, वीएसएम, इन्फैंट्री।
14. आईसी-16838 लेफ्टि जनरल मोहिंद्र सिंह, एवीएसएम, इन्फैंट्री।
15. आईसी-17240 लेफ्टि जनरल रिचर्ड खारे, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम, इन्फैंट्री।
16. आईसी-17244 लेफ्टि जनरल निर्भय शर्मा, एवीएसएम, वीएसएम, इन्फैंट्री।
17. आईसी-21254 लेफ्टि जनरल हरबंस सिंह कंवर, एवीएसएम, वीएसएम, इन्फैंट्री।
18. आईसी-22834 लेफ्टि जनरल बटिण्डा करिय्यप्पा बोप्पन्ना, एवीएसएम, वीएसएम, इन्फैंट्री।
19. आईसी-19029 मेजर जनरल आनन्द सागर भगत, एवीएसएम, एसएम, सिगनल।
20. आईसी-16300 मेजर जनरल मनमोहन सिंह, एवीएसएम, सिगनल (सेवानिवृत्त)।
21. वाइस एडमिरल लेस्लि अलेक्जेंडर लो, एवीएसएम, वीएसएम, (40202-टी)।
22. वाइस एडमिरल श्रीनिवास वरदाचारी गोपालाचारी, एवीएसएम, वीएसएम, (00713-डब्ल्यू)।
23. वाइस एडमिरल सतीश चन्द्र सुरेश बंगारा, एवीएसएम, (00726-जेड)।
24. एयर मार्शल अनिल कुमार त्रिखा, एवीएसएम, वीएसएम, (8436)फ्लाईंग (पायलट) (सेवानिवृत्त)।
25. एयर मार्शल बिजेन्द्र मोहन बाली, एवीएसएम, वीएम, (8438) फ्लाईंग (पायलट)।
26. एयर मार्शल विजय कृष्ण पांडेय, एवीएसएम, वीएम, (8990) फ्लाईंग (पायलट)।
27. एयर मार्शल नरायण मेनन, यूवाईएसएम, एवीएसएम, (9005) फ्लाईंग (पायलट)।
28. एयर मार्शल रघु राजन (8997) फ्लाईंग (पायलट)।
29. एयर मार्शल प्रकाशचन्द्र खंडुभाई देसाई, एवीएसएम, वीएसएम, (10078), एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग (मैकेनिकल)

बरुण मित्रा  
निदेशक

संख्या 23—प्रेज/2004 – राष्ट्रपति निम्नलिखित कार्मिकों को झड़पों के दौरान उनकी असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए “उत्तम युद्ध सेवा मेडल” प्रदान किए जाने का अनुमोदन करते हैं:—

1. आईसी-19009 मेजर जनरल हरदेव सिंह लिङ्कर, वाईएसएम, वीएसएम, पैरा/मुख्या.सीआईएफ (आर)
2. आईसी-19396 मेजर जनरल दीपक हरिशचन्द्रा सुमनवार, वीएसएम, राजपूताना राइफल/मुख्या. 8 माउटेन डिवीजन
3. आईसी-23291 मेजर जनरल जयन्ता कुमार मोहान्ती, एसएम, वीएसएम, डोगरा/मुख्या.28 इन्फैंट्री डिवीजन
4. आईसी-26838 मेजर जनरल सत्यवीर यादव, एवीएसएम, कुमाऊं/मुख्या.सीआईएफ(के)
5. रियर एडमिरल जगजीत सिंह बेदी, एवीएसएम, वीएसएम (01002-ए)

वरुण मित्रा  
(वरुण मित्रा)  
निदेशक

संख्या 24—प्रेज/2004 – राष्ट्रपति निम्नलिखित कार्मिकों को उनकी असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए “अति विशिष्ट सेवा मेडल—बार” प्रदान किए जाने का अनुमोदन करते हैं:—

1. आईसी-16618 लेफ्टि.जनरल राजिन्द्र बीर सिंह, एवीएसएम, वाईएसएम, इन्फैंट्री/मुख्या.14 कोर
2. आईसी-17640 मेजर जनरल कमल कृष्ण खन्ना, एवीएसएम, इन्फैंट्री/मुख्या. उत्तर कमान
3. आईसी-16261 मेजर जनरल चरनजीत सिंह बरार, एवीएसएम, कवचित कोर (सेवानिवृत्त)

वरुण मित्रा  
(वरुण मित्रा)  
निदेशक

संख्या 25—प्रेज/2004 – राष्ट्रपति निम्नलिखित कार्मिकों को उनकी असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए “अति विशिष्ट सेवा मेडल” प्रदान किए जाने का अनुमोदन करते हैं:-

1. आईसी-16038 लेफ्टि. जनरल यश मलहोत्रा, इंजीनियर्स/सीएमई, पुणे
2. आईसी-16139 लेफ्टि. जनरल सतीश भालचन्द्रा सतपूते, इन्फैंट्री/मुख्या. दक्षिण कमान
3. आईसी-16249 लेफ्टि. जनरल रविन्द्र कुमार रायचन्द, इंजीनियर्स/मुख्या. सेना प्रशिक्षण कमान
4. आईसी-16250 लेफ्टि. जनरल रघुबीर सिंह शहरावत, वीएसएम, सेना आयुध कोर
5. आईसी-16567 लेफ्टि. जनरल वीरेन्द्र कुमार धीर, इलेक्ट्रॉनिक एवं मैकनिकल इंजीनियर कोर
6. आईसी-17242 लेफ्टि. जनरल दिग्विजय पाल सिंह, इन्फैंट्री
7. आईसी-17895 लेफ्टि. जनरल माडाबूशी कृष्णमा चारी, इंजीनियर्स
8. एमआर-02064 लेफ्टि. जनरल रामजी राय, वीएसएम, सेना चिकित्सा कोर/सेना अस्पताल (आर एवं आर)
9. आईसी- 16289 मेजर जनरल भुपेन्द्र सिंह, वीएसएम, इन्फैंट्री/मुख्या. स्पेशल फ्रन्टियर फोर्स
10. आईसी-16833 मेजर जनरल बसन्त सिंह, वीएसएम, इन्फैंट्री
11. आईसी-16925 मेजर जनरल रुपेन्द्र सिंह बत्रा, वीएसएम, ईएमई/मुख्या. उत्तर कमान
12. आईसी-17239 मेजर जनरल बच्छिस्तर सिंह धालीवाल, वीएसएम, इंजीनियर्स/मुख्या. दक्षिण कमान
13. आईसी-17279 मेजर जनरल चरनजीत सिंह, वीएसएम, तोपखाना
14. आईसी-17631 मेजर जनरल अशोक वासुदेवा, वीएसएम, तोपखाना

15. आईसी-19048 मेजर जनरल प्रवीण कुमार जनमेजा,सिग्नल/मुख्या. उत्तर कमान
16. आईसी-19391 मेजर जनरल बलदेव सिंह पवार,तोपखाना/मुख्या. पश्चिम कमान
17. आईसी-19485 मेजर जनरल रणधीर सिंह, यूवाईएसएम, एसएम,इन्फैंट्री/मुख्या. 25 इन्फैंट्री डिवीजन
18. आईसी-19846 मेजर जनरल हरिन्द्र सिंह बत्रा, वीएसएम,इन्फैंट्री/मुख्या. 2 माउंटेन डिवीजन
19. आईसी-19886 मेजर जनरल योगेन्द्र कुमार जैन,इंजीनियर्स
20. आईसी-23030 मेजर जनरल प्रकाश सिंह चौधरी,एसएम, वीएसएम, इन्फैंट्री/मुख्या. सीआईएफ (डी)
21. आईसी-23295 मेजर जनरल जसबीर सिंह लिङ्कर, यूवाईएसएम,ग्रेनेडियर्स/मुख्या.सीआईएफ (वी)
22. आईसी-24528 मेजर जनरल उत्पल भट्टाचार्या,इंजीनियर्स/मुख्या. मध्य कमान
23. आईसी-28531 मेजर जनरल तेज कृष्ण कौल, वीएसएम,इन्फैंट्री/मुख्या. एम एवं जी एरिया
24. आईसी-28805 मेजर जनरल कुलवंत सिंह डोगरा, वीएसएम, वायु रक्षा तोपखाना
25. डीआर-10267 मेजर जनरल परमजीत सिंह, वीएसएम\*, सेना दंत चिकित्सा कोर/सेना मुख्या.  
**महानिदेशालय**
26. आईसी-16552 मेजर जनरल मरीनाल सुमन, वीएसएम, इंजीनियर्स (सेवानिवृत्त)
27. एमआर-02462 ब्रिगेडियर अजय प्रताप सिंह, वीएसएम, सेना चिकित्सा कोर
28. आईसी-27580 ब्रिगेडियर श्रुति कान्त, वीएसएम, सेना शिक्षा कोर (सेवानिवृत्त)
29. आईसी-41680 कर्नल अशोक अब्बे, डोगरा/एनआईएम उत्तरकाशी
30. वाइस एडमिरल दातला साई प्रसाद वर्मा, वीएसएम (50199-एन)
31. रियर एडमिरल रामन प्रेम सुथन, वीएसएम (01137-एच)
32. रियर एडमिरल निजाम महंमद नदाफ, वीएसएम (40305-ए)
33. रियर एडमिरल बृज कृष्ण कौल (50272-बी)
34. सर्जन रियर एडमिरल पणमपल्ली सिवादास (75112-एच)

35. कमोडोर संजय गुप्ता, वीएसएम (01212-बी)
36. कमोडोर बिरेन्दर सिंह बाजवा (60166-आर)
37. एयर वाइस मार्शल गॉर्डन पीटर डिसूजा (10984), लॉजिस्टिक्स
38. एयर वाइस मार्शल अरविन्द कुमार नगालिया, वीएम, वीएसएम (11633), फ्लाईंग (पायलट)
39. एयर वाइस मार्शल बलाती कलान्दरा उत्तैया चेंगप्पा, वीएसएम (12112) एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रॉनिक्स)
40. एयर वाइस मार्शल जयंत सच्चिदानंद आपटे (11900), एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रॉनिक्स)
41. एयर कमोडोर प्रवेश कुमार (12411), फ्लाईंग (पायलट)
42. एयर कमोडोर शक्ति भूषण पराशर, वीएसएम (12442), एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग (मैकेनिकल) (सेवानिवृत्त)
43. एयर कमोडोर विवेक कुमार चोपड़ा, वीएसएम (12752), फ्लाईंग (पायलट)
44. एयर कमोडोर धीरज कुकरेजा, वीएसएम (13130), फ्लाईंग (पायलट)
45. एयर कमोडोर संजय कुमार जयसवाल, वीएम (13134), फ्लाईंग (पायलट)
46. एयर कमोडोर राम रतन भारद्वाज, वीएसएम (13337), एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग (मैकेनिकल)
47. ग्रुप कैप्टन जसविन्द्र चौहान, वीएसएम (14079), फ्लाईंग (पायलट)
48. जीओ-759एन अपर महानिदेशक रमन सिंह, वीएसएम (सेवानिवृत्त)

बरुण मित्रा  
(बरुण मित्रा)  
निदेशक

संख्या 26-प्रेज/2004 – राष्ट्रपति निम्नलिखित कार्मिकों को झड़पों के दौरान उनकी उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए “युद्ध सेवा मेडल” प्रदान किए जाने का अनुमोदन करते हैं:-

1. आईसी-27779 ब्रिगेडियर विनय कुमार पाटिल, 11 गोरखा राइफल/मुख्या. 10 इन्फैंट्री ब्रिगेड
2. आईसी-27782 ब्रिगेडियर पी जी कामथ, एसएम, मद्रास/मुख्या. 93 इन्फैंट्री ब्रिगेड
3. आईसी-27962 ब्रिगेडियर कंवर विजय सिंह लालोत्रा, एसएम, 11 गोरखा राइफल/मुख्या. 120 इन्फैंट्री ब्रिगेड
4. आईसी-32453 ब्रिगेडियर विलियम जेम्स बर्ड स्टर्जन, एसएम, 8 गोरखा राइफल/मुख्या. 93 इन्फैंट्री ब्रिगेड
5. आईसी-35974 कर्नल संजय रघुनाथ फाटक, 11 मराठा लाइट इन्फैंट्री
6. आईसी-39436 कर्नल सतिन्द्र कुमार सैनी, 7 जाट
7. आईसी-39470 कर्नल मन मोहन गुप्ता, 1 असम
8. आईसी-40476 कर्नल अशोक गलोथ, 3 पैराशूट रेजिमेंट
9. आईसी-54071 मेजर अभिजीत अधिनाश भांबेरे, 1/5 गोरखा राइफल (फ्रंटियर फोर्स)
10. रियर एडमिरल देवेन्द्र कुमार जोशी, एनएम, वीएसएम (01507-जेड)
11. कमांडर सुनील वसंत भोकरे, एनएम (02654-एफ)
12. कमांडर कुलदीप मित्तल (03193-एफ)
13. लैफ्टिनेंट रवि कुमार (04669-के)

(2004) 11/10

(वरुण मित्रा)

निदेशक

संख्या 27-प्रेज/2004 – राष्ट्रपति निम्नलिखित कार्मिकों को उनकी उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए “विशिष्ट सेवा मेडल -बार” प्रदान किए जाने का अनुमोदन करते हैं:-

1. आईसी-19445 मेजर जनरल राजीव चोपड़ा, वीएसएम, तोपखाना
2. आईसी-19430 ब्रिगेडियर रामेन्द्र कुमार, वीएसएम, ग्रेनेडियर्स
3. एयर कमांडोर विजय कुमार, वीएसएम (13096), प्रशासन

(वरुण मित्रा)

निदेशक



संख्या 28-प्रेज/2004 – राष्ट्रपति निम्नलिखित कार्मिकों को उनकी उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए “विशिष्ट सेवा मेडल” प्रदान किए जाने का अनुमोदन करते हैं:-

1. आईसी-16935 मेजर जनरल सुभाष चन्दर, सिग्नल/मुख्या. दक्षिण कमान
2. आईसी-17644 मेजर जनरल दलजीत सिंह, आर्मड/मुख्या. दक्षिण कमान
3. आईसी-23978 मेजर जनरल निलेन्द्र कुमार, जेएजी
4. आईसी-24178 मेजर जनरल प्रबोध चन्द्र भारद्वाज, वीर चक्र, शौर्य चक्र, पैरा
5. आईसी-24194 मेजर जनरल मनबीर सिंह डडवाल, डोगरा
6. आईसी-24198 मेजर जनरल चान्द्रोथ कुनुमल सुचिन्द्रा साबू, आर्टिलरी
7. आईसी-16823 मेजर जनरल देवेन्द्र कुमार ब्युत्रा, सिग्नल (सेवानिवृत्त)
8. आईसी-19455 ब्रिगेडियर चरनजीत सिंह, इंजीनियर्स/मुख्या. उत्तर कमान
9. आईसी-23037 ब्रिगेडियर प्रकाश तुलारामराव घोगले, गाड्स/टीए ग्रुप मुख्या. दक्षिण कमान
10. आईसी-23277 ब्रिगेडियर अजय कुमार पाहवा, गाड्स/मुख्या. भर्ती जोन, जालंधर छावनी
11. आईसी-23304 ब्रिगेडियर प्रबीर गोस्वामी, कवचित कोर, मुख्या. आईडीएस
12. आईसी-23323 ब्रिगेडियर उषल सुधीर कुमार, मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री, मुख्या. दिल्ली एरिया
13. आईसी-23713 ब्रिगेडियर मदन मोहन त्रिघेदी, सिग्नल
14. आईसी-24217 ब्रिगेडियर खानजोडे किशोर कुमार विष्णु, इंटेल्जेंस क्लर/इंटेल्जेंस प्रशासन स्कूल एंड केंद्र

15. आईसी-24753 ब्रिगेडियर देश दीपक कपूर, आर्टिलरी
16. आईसी-25190 ब्रिगेडियर दीपक बजाज, कवचित कोर/मुख्या. दक्षिण कमान
17. आईसी-25512 ब्रिगेडियर कमल कुमार, इलैक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर कोर/मुख्या. 21 कोर
18. आईसी-27022 ब्रिगेडियर अनील कुमार लाल, पंजाब/मुख्या. 9(I) माउंटेन ब्रिगेड ग्रुप
19. आईसी-27187 ब्रिगेडियर पी वी सुरेन्द्रानाथन, इलैक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर कोर
20. आईसी-27205 ब्रिगेडियर विनय भट्टनागर, 5 गोरखा राइफल/मुख्या. 64 माउंटेन ब्रिगेड
21. आईसी-27244 ब्रिगेडियर जोगिन्दर सिंह मान, कुमाऊं/मुख्या. 77 माउंटेन ब्रिगेड
22. आईसी-27761 ब्रिगेडियर चन्द्र प्रकाश, आर्टिलरी/मुख्या. 7 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल
23. आईसी-27953 ब्रिगेडियर जसजीत सिंह गोसाल, 3 गोरखा राइफल/मुख्या. उत्तर कमान
24. आईसी-29336 ब्रिगेडियर महीपाल सिंह, आर्टिलरी/मुख्या. केके एंड जी सब एरिया
25. आईसी-29889 ब्रिगेडियर अमरजात सिंह, इंजीनियर्स/मुख्या. सीई (पी) हिमांक
26. आईसी-32550 ब्रिगेडियर राज कृष्ण मल्होत्रा, जाट/मुख्या. 190 माउंटेन ब्रिगेड
27. आईसी-32792 ब्रिगेडियर निल्लमाक्कदा ननजप्पा मादप्पा, मैक. इन्फैंट्री/मुख्या. 7 सेक्टर, असम राइफल
28. आईसी-33414 ब्रिगेडियर बिनोद कुमार, इंजीनियर्स/मुख्या. 123 माउंटेन ब्रिगेड
29. आईसी-33557 ब्रिगेडियर रशीद इनायथुल्ला, डोंगरा
30. आईसी-33887 ब्रिगेडियर सुरेन्द्र सिंह, सेना आयुध कोर
31. एमआर-02670 ब्रिगेडियर मुनीन्द्र श्रीवास्तवा, सेना चिकित्सा कोर/92 बेस अस्पताल
32. एमआर-03364 ब्रिगेडियर नरेश कुमार परमार, वीर चक्र, सेना चिकित्सा कोर
33. आईसी-30731 कर्नल हरमीत सिंह धोट, इलैक्ट्रॉनिक्स एवं मैकेनिकल इंजीनियर कोर/एमसीईएमई
34. आईसी-31568 कर्नल अंशु कर्माकर, सिग्नल

35. आईसी-33434 कर्नल वेद पाल सिंह, कुमाऊं/मुख्या. 21 माउंटेन डिवीजन
36. आईसी-34019 कर्नल दिपेन्द्र सिंह हुड्डा, 4/4 गोरखा राइफल
37. आईसी-34028 कर्नल अनिरुद्ध चक्रवर्ती, राजपूत
38. आईसी-34070 कर्नल एन जे सिंह, कवचित कोर/मुख्या. पूर्वी कमान
39. आईसी-34849 कर्नल जोन डी ब्रिटो, वाईएसएम, पैरा/15 कोर बैटल स्कूल
40. आईसी-36725 कर्नल एलबर्ट फिलिप सैम्युल पाकियानाथन, 18 सिख
41. आईसी-37217 कर्नल राजेश कुमार, आर्टिलरी/51 फील्ड रेजिमेंट
42. आईसी-37687 कर्नल सी सन्दीप कुमार, 1 मराठा लाइट इन्फैंट्री
43. आईसी-38606 कर्नल रजत रस्तोगी, इंजीनियर्स
44. आईसी-38749 कर्नल श्याम मोहन मुरारी, वायु रक्षा तोपखाना/510 लाइट एडी मिसाइल रेजिमेंट
45. आईसी-38792 कर्नल पंकज मल्होत्रा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर कोर
46. आईसी-38812 कर्नल प्रदीप कुमार सिंह, एसएम, 6 राजपूत
47. आईसी-39490 कर्नल विजय सिंह शेखावत, एसएम, पैरा, 6 असम राइफल
48. आईसी-39624 कर्नल प्रदीप मूर्ति बाली, 24 पंजाब
49. आईसी-39808 कर्नल गुरदीप सिंह, एसएम, 12 इंजीनियर रेजिमेंट
50. आईसी-39865 कर्नल माइकल मैथ्यूस, 103 इंजीनियर रेजिमेंट
51. आईसी-39872 कर्नल अनिल कपूर, 626 ईएमई बटालियन
52. आईसी-40158 कर्नल अनुज केन्थला, 21 जाट
53. आईसी-40290 कर्नल बिपिन बक्शी, 102 इंजीनियर रेजिमेंट
54. आईसी-40364 कर्नल गजेन्द्र प्रसाद, 3 डोगरा

55. आईसी-42609 कर्नल सुधीर सिंह अहलावत, सेना सेवा कोर/877 एटी बटालियन एएससी
56. एमआर-03318 कर्नल प्रदीप भारगवा, सेना चिकित्सा कोर/कमान अस्पताल मुख्या. उत्तर कमान
57. एमआर-03240 कर्नल बिक्रम कुमार सिंह, एसएम, सेना चिकित्सा कोर/सेना अस्पताल (आर एंड आर)
58. एमआर-03247 कर्नल दिपांकर गांगुली, सेना चिकित्सा कोर/सेना अस्पताल (आर एंड आर)
59. एमआर-03436 कर्नल चरनर्जात सिंह, सेना चिकित्सा कोर/एमएच (सीटीसी)
60. एमआर-03691 कर्नल राजन चौधरी, सेना चिकित्सा कोर/कमान अस्पताल, मुख्या.उत्तर कमान
61. आईसी-38059 लेफ्टि. कर्नल मुकेश कुमार गुप्ता, आर्टिलरी/1841 लाइट रेजिमेंट
62. आईसी-40223 लेफ्टि. कर्नल सतीश चन्दर शर्मा, एससी, डोगरा
63. आईसी-43854 लेफ्टि. कर्नल आलोक दत्त सरदाना, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरी कोर/मुख्या. टीजी इएमई
64. आईसी-45246 लेफ्टि. कर्नल इश्वन्दर सिंह सहदेवा, 18 मद्रास
65. एमआर-03856 लेफ्टि. कर्नल वेलू नायर, सेना चिकित्सा कोर/सेना अस्पताल (आर एंड आर)
66. एमआर-04434 लेफ्टि. कर्नल राजन सिंह ग्रवाल, सेना चिकित्सा कोर/कमान अस्पताल मुख्या. पश्चिम कमान
67. एमआर-04726 लेफ्टि. कर्नल रजत दत्ता, सेना चिकित्सा कोर/कमान अस्पताल, मुख्या. पश्चिम कमान
68. एमआर-05272 लेफ्टि. कर्नल शरदेन्दु उपाध्याय, सेना चिकित्सा कोर/एएफसी
69. एमआर-05858 लेफ्टि. कर्नल विनोद राघव, सेना चिकित्सा कोर/बेस अस्पताल दिल्ली कैंट
70. आईसी-44457 मेजर राकेश कुमार धर, इंटेल्जेंस/28 डिवीजन इंटेजीलेस यूनिट
71. आईसी-48236 मेजर चन्द्र शेखर मान्डा, आर्टिलरी/9 पैरा फील्ड रेजिमेंट
72. आईसी-50002 मेजर समीर लाम्बा, सेना सेवा कोर/853 एटी कम्पनी एएससी
73. एमआर-03765 मेजर दीना नाथ शर्मा, जनरल सर्विस/जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री रिकार्ड

74. एसएल-04590 कैप्टन अर्जुन सिंह चीमा, ईएमई, 948 एडी मिसाइल रेजिमेंट, डब्ल्यूके एसटी
75. कमोडोर फली होमी दुबाष, (60208-के)
76. कमोडोर अजय कुमार पटनायक (01188-जेड)
77. कमोडोर बोला राधाकृष्णा राव, एनएम (01249-एन)
78. कमोडोर पारस नाथ (02373-टी)
79. कमोडोर सीभावी पटेल रमेश रेड्डी, (01358-के)
80. कमोडोर शंकरन मामपुल्ली (01748-वाई)
81. कमोडोर सूर्य कुमार चन्द्र, (50212-टी) (सेवानिवृत्त)
82. कमोडोर राकेश बजाज (50560-एच)
83. कमोडोर श्रीनिवासन वेंकटरमन (50505-एच)
84. कमांडर जसबीर सिंह गांधी (01290-एफ)
85. कमांडर जयन्ति वेंकटरमन मूर्ति (70202-जेड)
86. कमांडर प्रताप सिंह वर्मा (40832-जेड)
87. कमांडर-एट-आर्म्स सुनील कुमार मिन्हास (02475-जेड)
88. कमांडर नवाज अहमद (02924-डब्ल्यू) (मरणोपरांत)
89. सर्जन लेफ्टि. कमांडर प्रमीद कुमार श्रीवास्तव (75606-एफ)
90. बीरेन्द्र कुमार राय, एमसीपीओ II सीडी I (203558-एच)
91. एयर वाइस मार्शल दीपक कुमार सेन (11915), एरोनॉटिकल इंजीनियरी (इलैक्ट्रॉनिक्स)
92. एयर कमोडोर इन्दु भाल भसीन (12871), एरोनॉटिकल इंजीनियरी (मैकेनिकल)
93. एयर कमोडोर सन्त प्रकाश सिंह विर्क (13491), एरोनॉटिकल इंजीनियरी (इलैक्ट्रॉनिक्स)

94. एयर कमांडोर अशोक धर (13940) फ्लाईंग (पायलट)
95. ग्रुप कैप्टन राजीव कुमार (13116) एकाउंट्स,
96. ग्रुप कैप्टन रतन बीर कालरा (13690) एकाउंट्स
97. ग्रुप कैप्टन मनमोहन, डोगरा (13755) चिकित्सा
98. ग्रुप कैप्टन संजीव मिसरा, एससी (14094) फ्लाईंग (पायलट)
99. ग्रुप कैप्टन अशोक कुमार सिन्हा (14336), एरोनॉटिकल इंजीनियरी (इलेक्ट्रॉनिक्स)
100. ग्रुप कैप्टन दिलिप राघवेन्द्र दाणी (14346), एरोनॉटिकल इंजीनियरी (मैकेनिकल)
101. ग्रुप कैप्टन अशोक सिंघल (14615), एरोनॉटिकल इंजीनियरी (इलेक्ट्रॉनिक्स)
102. ग्रुप कैप्टन अमित अनेजा, वीएम (14668) फ्लाईंग (पायलट)
103. ग्रुप कैप्टन मोहनचन्दन पनीकर(14704), प्रशासन /एयर ट्रेफिक कंट्रोलर
104. ग्रुप कैप्टन चैत्रुपाति रामाचन्द्र प्रसाद, (14998) फ्लाईंग (नेवीगेटर)
105. ग्रुप कैप्टन यदुनाथ जयराम साठे (15044) लॉजिस्टिक्स
106. ग्रुप कैप्टन दत्तात्रय केशव पांडे (15031) एरोनॉटिकल इंजीनियरी (इलेक्ट्रॉनिक्स)
107. ग्रुप कैप्टन अनिरुद्ध प्रभाकर कडुस्कर (15189) फ्लाईंग (पायलट)
108. ग्रुप कैप्टन अनूप घोष (15563) फ्लाईंग (पायलट)
109. ग्रुप कैप्टन हेमन्त शर्मा (15941) एरोनॉटिकल इंजीनियरी (इलेक्ट्रिकल)
110. ग्रुप कैप्टन पंकज अनेजा (15975) एरोनॉटिकल इंजीनियरी (मैकेनिकल)
111. विंग कमांडर तोंडा श्री वेंकटेश (16796) फ्लाईंग (पायलट)
112. विंग कमांडर अरविंद कुमार द्विवेदी (16979) फ्लाईंग (पायलट)
113. विंग कमांडर वेल्लूर दोराइस्वामी ईश्वर (16994) फ्लाईंग (पायलट)

114. विंग कमांडर ताज़े पारा हरिप्रसाद (17036) प्रशासन
115. स्क्वॉड्रन लीडर महेश कुमार अबरोल (17391) प्रशासन
116. स्क्वॉड्रन लीडर विनीत गोयल (20699) एरोनॉटिकल इंजीनियरी (मैकेनिकल)
117. ब्रिगेडियर विनोद कुमार शर्मा (आईसी-24726 एफ) इंजीनियर्स
118. जीओ-1332 डब्ल्यू चीफ इंजीनियर (सिविल) सलिल राय चौधरी
119. जीओ-1336एम चीफ इंजीनियर (सिविल) दीपेन्द्र कुमार बनर्जी

(बरुण मित्रा)  
(बरुण मित्रा)  
निदेशक

संख्या 29-प्रेज/2004 – राष्ट्रपति निम्नलिखित कार्मिकों को उनके असाधारण वीरतापूर्ण कार्यों के लिए “सेना मेडल / आर्मी मेडल-बार” प्रदान किए जाने का अनुमोदन करते हैं:-

1. आईसी-39879 कर्नल अनूप कृशन धर, एसएम, पैरा/12 असम राइफल
2. आईसी-40751 लेफ्टि. कर्नल सुरेद्र कुमार, एसएम, आर्मी एविएशन/22(I) आर एंड ओ फ्लाइट
3. आईसी-53643 मेजर हितेन्द्रा उत्तमराव मराठे, एसएम, 13 जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री
4. 4063092 हवलदार दात्ता राम, एसएम, 4 गढ़वाल राइफल

(बरुण मित्रा)  
(बरुण मित्रा)  
निदेशक

संख्या 30-प्रेज/2004 – राष्ट्रपति निम्नलिखित कार्मिकों को उनके असाधारण वीरतापूर्ण कार्यों के लिए “सेना मेडल / आर्मी मेडल” प्रदान किए जाने का अनुमोदन करते हैं:-

1. आईसी-37328 कर्नल जसपाल सिंह पामा, 2/3 गोरखा राइफल
2. आईसी-39365 कर्नल हरिन्द्र कुमार श्रावत, मद्रास/8 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)
3. आईसी-42285 कर्नल सत्या प्रकाश रावत, राजपूताना राइफल/43 राष्ट्रीय राइफल
4. आईसी-45125 कर्नल जयनारायण सिंह बिष्ट, वीर चक्र, 11 मराठा लाइट इन्फैंट्री
5. आईसी-43669 लेफ्टि. कर्नल शिवपाल सिंह, ग्रेनेडियर/29 राष्ट्रीय राइफल
6. आईसी-44617 मेजर राकेश देशवाल, महार/1 राष्ट्रीय राइफल
7. आईसी-46475 मेजर तेग सिंह सोमल, 17 गढ़वाल राइफल, 36 राष्ट्रीय राइफल
8. आईसी-46795 मेजर जगदीप सिंह, 4 ग्रेनेडियर्स
9. आईसी-47833 मेजर सुखमिन्द्र सिंह, आर्टिलरी/45 राष्ट्रीय राइफल
10. आईसी-49443 मेजर विशाल शर्मा, ग्रेनेडियर्स/29 राष्ट्रीय राइफल
11. आईसी-49573 मेजर नितिन खरे, 19 जाट
12. आईसी-49588 मेजर मोहिंदर पाल सिंह, 18 जम्मू-कश्मीर राइफल
13. आईसी-49762 मेजर राज रतन चाहर, 16 सिख लाइट इन्फैंट्री
14. आईसी-49987 मेजर दीपेन्द्र सिंह, आर्मी एविएशन/3 आर एंड ओ फ्लाइट
15. आईसी-50865 मेजर अमित कुमार सिंह, 18 सिख



16. आईसी-51793 मेजर इंदर सिंह, इंजीनियर्स/9 राष्ट्रीय राइफल
17. आईसी-51923 मेजर विनोद कुमार राना, कवचित कोर/37 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)
18. आईसी-52086 मेजर अमरीक सिंह, पंजाब/7 राष्ट्रीय राइफल
19. आईसी-52146 मेजर रविन्दर नरवाल, कवचित कोर/30 राष्ट्रीय राइफल
20. आईसी-52981 मेजर ज्ञान प्रकाश चौधरी, आर्टिलरी/18 राष्ट्रीय राइफल
21. आईसी-53257 मेजर सचिन्दर तिवारी, महार/1 राष्ट्रीय राइफल
22. आईसी-54165 मेजर नवनीत बक्शी, मराठा लाइट इन्फैंट्री/27 राष्ट्रीय राइफल
23. आईसी-54478 मेजर दीपू शिरोही, मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री/35 राष्ट्रीय राइफल
24. आईसी-54698 मेजर राजेश्वर परमार, 8 मद्रास
25. आईसी-55021 मेजर नटवर सिंह शक्तावत, सेना सेवा कोर/4 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)
26. आईसी-55534 मेजर दिवान सिंह धामी, 5/8 गोरखा राइफल
27. आईसी-55648 मेजर लोकेश कुमार, 19 गढ़वाल राइफल
28. आईसी-55757 मेजर विपिन कौशल, गाड्स/21 राष्ट्रीय राइफल
29. आईसी-56607 मेजर चिंगीरेड्डी भरत कुमार, 2 पैरा (स्पेशल फोर्स)
30. आईसी-57130 मेजर विपुल सिंह राजपूत, ग्रेनेडियर/39 राष्ट्रीय राइफल
31. आईसी-57419 मेजर एस. विजय कुमार, महार/1 राष्ट्रीय राइफल
32. आईसी-57615 मेजर अभिनन्दन सिंह, 1 गोरखा राइफल/15 राष्ट्रीय राइफल
33. आईसी-58026 मेजर भुपेन्द्र सिंह कन्डारी, राजपूताना राइफल/43 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)
34. आईसी-58183 मेजर अशोक आर्या, डोगरा/11 राष्ट्रीय राइफल

35. आरसी-1068 मेजर हरपाल सिंह, 22 सिख (मरणोपरांत)
36. आईसी-59387 कैप्टन अरविन्द कुमार तिवारी, सिग्नल/22 विशेष सुरक्षा बल
37. आईसी-59641 कैप्टन अजय शर्मा, एओसी, 16 सिख लाइट इन्फैंट्री
38. आईसी-59685 कैप्टन कपिल अरोरा, 21 जाट
39. आईसी-59985 कैप्टन दीपांकर बसु, 16 सिख लाइट इन्फैंट्री
40. एसएस-37466 कैप्टन दिनेश सिंह, इंजीनियर्स/19 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)
41. एसएस-37609 कैप्टन विवेक कन्दारी, आर्टिलरी/36 राष्ट्रीय राइफल
42. एसएस-37811 कैप्टन कन्नन स्वामिनाथन, आर्टिलरी/36 राष्ट्रीय राइफल
43. आईसी-61073 लेफ्टिनेंट यदलापल्ली विजय, 15 राजपूत
44. आईसी-61542 लेफ्टिनेंट पंकज शर्मा, 16 सिख लाइट इन्फैंट्री
45. आईसी-61347 लेफ्टिनेंट मोहित सिंह, 1/5 गोरखा राइफल (एफ एफ)
46. आईसी-62189 लेफ्टिनेंट इन्द्रप्रीत सिंह ढिल्लौं, एससी, 9 जाट
47. आईसी-62818 लेफ्टिनेंट ललित दिलिप तहराबादकर, 5 बिहार
48. एसएस-39016 लेफ्टिनेंट संजय बमरारा, 1 मराठा लाइट इन्फैंट्री
49. एसएस-39549 लेफ्टिनेंट अजीत कुमार राजगुरू मिश्रा, 16 पंजाब
50. एसएस-39844 लेफ्टिनेंट सहाय सेलवाराज थोमस, ईएमई/4 गढ़वाल राइफल (मरणोपरांत)
51. जेसी-508014 सूबेदार मेजर सुचा सिंह, 11 सिख लाइट इन्फैंट्री (मरणोपरांत)
52. जेसी-122498 सूबेदार बिजोय कुमार सुब्बा, 12 असम राइफल
53. जेसी-216785 सूबेदार सत्यवीर सिंह, राजपूताना राइफल/18 राष्ट्रीय राइफल
54. जेसी-519179 सूबेदार चैन सिंह, डोगरा/40 राष्ट्रीय राइफल

55. जेसी-538979 सूबेदार दलीप सिंह, 18 कुमांऊ (मरणोपरांत)
56. जेसी-617057 सूबेदार प्रदीप थापा, 4/5 गोरखा राइफल (मरणोपरांत)
57. जेसी-469137 नायब सूबेदार राम दत्त सिंह, 11 राजपूताना राइफल (मरणोपरांत)
58. जेसी-499147 नायब सूबेदार सवर्ण सिंह, 3 सिख
59. जेसी-539045 नायब सूबेदार हरी कृष्ण पान्डे, 8 कुमांऊ
60. जेसी-592888 नायब सूबेदार शमशेर सिंह, 10 जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री
61. जेसी-612344 नायब सूबेदार टेक बहादुर गुरुंग, 2/4 गोरखा राइफल
62. जेसी-569232 नायब सूबेदार विजय पाल यादव, 6 महार रेजिमेंट
63. 1476639 हवलदार समर कुमार मंडल, इंजीनियर्स/39 राष्ट्रीय राइफल
64. 2678105 हवलदार प्रभात चंद, 4 ग्रेनेडियर
65. 2784292 हवलदार मुचान्डी विट्ठल केनचप्पा, मराठा लाइट इन्फैंट्री/17 राष्ट्रीय राइफल
- ✓ 66. 2883291 हवलदार मुन्ना लाल, राजपूताना राइफल/18 राष्ट्रीय राइफल
67. 3177643 हवलदार रणवीर सिंह, 21 जाट
68. 3983942 हवलदार रणजीत सिंह, डोगरा/11 राष्ट्रीय राइफल
69. 4067250 हवलदार शक्ति प्रसाद, गढ़वाल राइफल/36 राष्ट्रीय राइफल
70. 4181408 हवलदार वेद प्रकाश चन्द्र जोशी, सिक्यूरिटी यूनिट/739 इंटेलीजेंस और फील्ड
71. 7430970 हवलदार कुरियन वीटी, इंटेलीजेंस कोर/नं. 2 डिटैचमेंट पूर्वी कमान (मरणोपरांत)
72. ✓ 13614770 हवलदार शिशराम गुर्जर, 10 पैरा (स्पेशल फोर्स)
73. 13748757 हवलदार राम दास, 18 जम्मू-कश्मीर राइफल

74. 3391674 लांस हवलदार निशान सिंह, सिख/16 राष्ट्रीय राइफल
75. 4270977 लांस हवलदार निकोलस टोपनो, 5 बिहार
76. 2595101 नायक बालप्पा सनादी, 7 मद्रास
77. 2686303 नायक गंगा राम, 4 ग्रेनेडियर
78. 2989652 नायक मान सिंह, राजपूत/10 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)
79. 4068984 नायक रमेश शर्मा, 4 गढ़वाल राइफल
80. 4475354 नायक गुरजीत सिंह, 16 सिख लाइट इन्फैंट्री
81. 2484534 लांस नायक सकिन्द्र कुमार, 23 पंजाब (मरणोपरांत)
82. 2485448 लांस नायक सरूप सिंह, 3 पंजाब (मरणोपरांत)
83. 2793111 लांस नायक कदम बालाजी बाबू, 1 मराठा लाइट इन्फैंट्री
84. 2891149 लांस नायक शिम्भू सिंह, राजपूताना राइफल/18 राष्ट्रीय राइफल
85. 3189226 लांस नायक धर्मेन्द्र सिंह, 21 जाट
86. 3394342 लांस नायक राजेन्द्र सिंह, सिख/6 राष्ट्रीय राइफल
87. 3990531 लांस नायक मलकीत सिंह, 3 डोगरा
88. 4073259 लांस नायक संजीव कुमार, 15 गढ़वाल राइफल
89. 4076040 लांस नायक प्रदीप भट्ट, गढ़वाल राइफल/36 राष्ट्रीय राइफल
90. 4274202 लांस नायक चन्देश्वर प्रसाद, 5 बिहार
91. 13755983 लांस नायक उपदेश कुमार शर्मा, 15 जम्मू-कश्मीर राइफल
92. 14429580 लांस नायक अवद विष्णु भगवान, आर्टिलरी/36 राष्ट्रीय राइफल

93. 2489218 सिपाही बलविन्द्र सिंह, 16 पंजाब
94. 2492191 सिपाही वरिन्द्र सिंह, 16 पंजाब
95. 2601594 सिपाही सुधीश पालायाक्कोट, मद्रास/38 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)
96. 2997736 सिपाही बलराम सिंह, राजपूत/10 राष्ट्रीय राइफल
97. 2998150 सिपाही भगवान सिंह गुर्जर, राजपूत/44 राष्ट्रीय राइफल
98. 2998936 सिपाही देवेन्द्र प्रताप सिंह, राजपूत/10 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)
99. 3191627 सिपाही सुरेश सिंह, जाट/34 राष्ट्रीय राइफल
100. 3397157 सिपाही हरप्रीत सिंह, सिख/ 6 राष्ट्रीय राइफल
101. 3398600 सिपाही रणजीत सिंह, 7 सिख
102. 3399375 सिपाही घार सिंह, सिख/6 राष्ट्रीय राइफल
103. 4278442 सिपाही बलराम ध्रुव, बिहार/4 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)
104. 4569314 सिपाही करमजीत सिंह, महार/1 राष्ट्रीय राइफल
105. 4571544 सिपाही योगेंद्र कुमार शर्मा, 6 महार (मरणोपरांत)
106. 4572379 सिपाही सुभाष सिंह चन्द्र, 6 महार
107. 15137694 सिपाही परशुराम यादव, आर्टिलरी/30 राष्ट्रीय राइफल
108. 114246 राइफलमैन तेलुगु आदि नारायण, 11 असम राइफल (मरणोपरांत)
109. 4078045 राइफलमैन सुनील सिंह, गढ़वाल राइफल/36 राष्ट्रीय राइफल
110. 5248796 राइफलमैन राजेश गुरुंग, 3/3 गोरखा राइफल (मरणोपरांत)
111. 13756363 राइफलमैन केवल सिंह, 15 जम्मू-कश्मीर राइफल

112. 14424199 गनर विनोद कुमार, आर्टिलरी/17 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)
113. 15144630 गनर कुलबीर सिंह, आर्टिलरी/12 मराठा लाइट इन्फैंट्री (मरणोपरांत)
114. 15769456 गनर कृष्ण कांत, वायु रक्षा तोपखाना/20 राष्ट्रीय राइफल
115. 13698698 गार्ड्समैन विनोद कुमार एस, गार्ड्स/21 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)
116. 15611521 गार्ड्समैन प्रभात चन्द्रा इनाटी, 13 गार्ड्स

(ब.रु.मि.)  
(बरुण मित्रा)  
निदेशक

संख्या 31-प्रेज/2004 – राष्ट्रपति निम्नलिखित कार्मिकों को उनके असाधारण वीरतापूर्ण कार्यों के लिए “नौसेना मेडल / नेवी मेडल” प्रदान किए जाने का अनुमोदन करते हैं:-

1. कमांडर शौकत अली शेख (02770-डब्ल्यू)
2. कमांडर उमेद सिंह चारन (03104-बी)
3. कुन्नुमपुरथ रमण बीजू, पीओ सीडी I, (172828-टी)
4. हिम्मत सिंह, एलएस सीडी II, (116578-ए)
5. भाऊसाहेब गणपति पोवार, एलएस सीडी I, (179869-डब्ल्यू) (मरणोपरांत)

(ब.रु.मि.)  
(बरुण मित्रा)  
निदेशक

संख्या 32-प्रेज/2004 – राष्ट्रपति निम्नलिखित कार्मिकों को उनके असाधारण वीरतापूर्ण कार्यों के लिए “वायुसेना मेडल / एयर फोर्स मेडल” प्रदान किए जाने का अनुमोदन करते हैं:-

1. स्क्वाड्रन लीडर संजीव कुमार भटनागर, (18838) फ्लाईंग (पायलट)
2. स्क्वाड्रन लीडर नरेश भालेराव (22908), फ्लाईंग (पायलट)

(ब.रु.मि.)  
(बरुण मित्रा)  
निदेशक

संख्या 33—प्रेज/2004 — राष्ट्रपति निम्नलिखित कार्मिकों को उनके असाधारण कर्तव्यपरायणतापूर्ण कार्यों के लिए “सेना मेडल / आर्मी मेडल” प्रदान किए जाने का अनुमोदन करते हैं:—

1. आईसी-25469 ब्रिगेडियर करण सिंह यादवा, वीएसएम, 4/3 गोरखा राइफल/मुख्या. 6 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल
2. आईसी-25838 ब्रिगेडियर अनिल कुमार चोपड़ा, सेना आयुध कोर/सीएमएम जबलपुर
3. आईसी-27204 ब्रिगेडियर विजय कुमार शर्मा, पंजाब/मुख्या. 268 इन्फैंट्री ब्रिगेड
4. आईसी-27231 ब्रिगेडियर जय विभव कोण्णूर, राजपूताना राइफल/मुख्या. 121 (अ) इन्फैंट्री ब्रिगेड ग्रुप
5. आईसी-27325 ब्रिगेडियर राजेश कोछर, वीएसएम, इलेक्ट्रॉनिक एवं मैकेनिकल इंजीनियर्स कोर
6. आईसी-27686 ब्रिगेडियर कामख्या प्रसाद दास, महार/मुख्या. 56 माउंटेन ब्रिगेड
7. आईसी-27793 ब्रिगेडियर जतिन्दर सिंह, गाइर्स/मुख्या. 107 माउंटेन ब्रिगेड
8. आईसी-30085 ब्रिगेडियर जग दर्शन सिंह रावत, इंटेलीजेंस कोर
9. आईसी-32716 ब्रिगेडियर प्रकाश चन्द्र सिंह खाती, वीर चक्र, 1 गोरखा राइफल/मुख्या. 163 इन्फैंट्री ब्रिगेड
10. एमआर-02838 ब्रिगेडियर ऊम्मन पॉल मैथ्यू, सेना चिकित्सा कोर, एमएच जालंधर कैंट
11. आईसी-30339 कर्नल किरन कुमार डंगवाल, इंजीनियर्स/ट्रेनिंग सेन्टर, राष्ट्रीय सुरक्षा, गाइर्स
12. आईसी-34515 कर्नल तेजिन्द्र सिंह गिल, वीएसएम, आर्मी एविएशन/666 सेना अधिग्रहण स्क्वाड्रन (आर एंड ओ)
13. आईसी-35122 कर्नल बलवन्त सिंह चौहान, कुमाऊं/मुख्या. 21 माउंटेन डिवीजन
14. आईसी-35933 कर्नल अरुण धर, 10 जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री

15. आईसी-37647 कर्नल कुलवन्त सिंह, वीएसएम, इंटेलीजेंस कोर/सेन्ट्रल कमान संपर्क यूनिट
16. आईसी-37813 कर्नल विनोद कुमार अडप्पा, 3 सिख
17. आईसी-38007 कर्नल असदउल्लाह खान, 15 जम्मू-कश्मीर राइफल
18. आईसी-38440 कर्नल सागर सिंह, 5 बिहार
19. आईसी-39875 कर्नल गुरदीप सिंह बैन्स, वीएसएम, 2 पैरा (स्पेशल फोर्स)
20. आईसी-40151 कर्नल रणजीत सिंह, राजपूत/10 राष्ट्रीय राइफल
21. आईसी-40235 कर्नल गोपाल आर, 2/8 गोरखा राइफल
22. आईसी-40366 कर्नल आनन्द सिंह रावत, 15 सिख लाइट इन्फैंट्री
- // 23. आईसी-40777 कर्नल मानवेन्द्र सिंह जसवाल, राजपूताना राइफल/18 राष्ट्रीय राइफल
24. आईसी-40796 कर्नल राजविंदर पाल सिंह सन्धू, जाट/34 राष्ट्रीय राइफल
25. वी-346 कर्नल श्री कांत शर्मा, रिमाउंट एंड वैटरिनरी कोर
26. एमआर-03440 कर्नल अवतार सिंह बाथ, सेना चिकित्सा कोर/सेना अस्पताल (आर एंड आर)
27. एमआर-03703 कर्नल विरेन्द्र कुमार बातिश, सेना चिकित्सा कोर/कमान अस्पताल, मुख्या. पश्चिम कमान
28. आईसी-41948 लेफ्टि. कर्नल हसमुख पटेल, इंटेलीजेंस कोर/615 इंटे. एंड एफएस यूनिट
29. आईसी-43771 लेफ्टि. कर्नल एस मोहन, वायु रक्षा तोपखाना
30. एसएल-2742 लेफ्टि. कर्नल पुथिया कोविलकत्त मुरलीधरन राजा, सेना शारीरिक प्रशिक्षण कोर
31. आईसी-42862 मेजर यशपाल सिंह मोर, गाइड्स/36 राष्ट्रीय राइफल
32. आईसी-45910 मेजर रजनीश कक्कर, कवचित कोर
33. आईसी-46658 मेजर परवीन कुमार, इंजीनियर्स/116 सड़क निर्माण कंपनी (जीआरईएफ)
34. आईसी-51263 मेजर दिनेश कुमार त्यागी, सेना आयुध कोर/4 इन्फैंट्री डिवीजन आयुध यूनिट



35. आईसी-51945 मेजर राजीव कुमार दहिया, एससी, सिख/16 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)
36. आईसी-54238 मेजर प्रवीण कुमार पाण्डे, 9 महार
37. आईसी-56938 मेजर सरीत प्रकाश, 7/11 गोरखा राइफल
38. आईसी-54472 कैप्टन नवदीप सिंह सन्धु, डोगरा/5 डिटे. पश्चिम कमान संपर्क यूनिट
39. आईसी-56853 कैप्टन इरफान गिलबर्ट कोलिनसन, गाइर्स/3 लद्दाख स्काउट
40. आईसी-57467 कैप्टन अमित कुमार चंदन, 21 ग्रेनेडियर्स (मरणोपरांत)
41. आईसी-60177 लेफ्टिनेंट अश्विनि कुमार शर्मा, 237 इंजीनियर रेजिमेंट
42. एससी-00347 लेफ्टिनेंट रामकृष्णा रंगराव वाघ, सेना आयुध कोर/9 डोगरा
43. जेसी-691939 सूबेदार श्याम किशोर जैसवाल, सेना चिकित्सा कोर/405 फील्ड एम्बुलेंस (मरणोपरांत)
44. 3177543 हवलदार कल्ला राम, 7 जाट
45. 4185082 नायक आनन्द सिंह, कुमाऊं/कुमाऊं स्काउट
46. 4190094 लांस नायक राजेश जोशी, पैरा/हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल
47. 15339803 सेपर केन्द्र पाल, 237 इंजीनियर रेजिमेंट

ब.रु.मि. (ब.रु.मि.)

(बरुण मित्रा)

निदेशक

संख्या 34-प्रेज/2004 – राष्ट्रपति निम्नलिखित कार्मिकों को उनके असाधारण कर्तव्यपरायणतापूर्ण कार्यों के लिए “नौसेना मेडल / नेवी मेडल” प्रदान किए जाने का अनुमोदन करते हैं:-

1. कमोडोर इलायप्पा गोंडार गोविंदन (50283-बी) (सेवानिवृत्त)
2. कमोडोर मुत्ताथिल पुथनवीतिल मुरलीधरन (01587-एफ)
3. कैप्टन अनिल कुमार चावला, (02312-बी)
4. कैप्टन नम्बूरी कृष्ण राव (40672-के)
5. कैप्टन कृष्णन नायर मोहनदास (01834-टी)
6. कमांडर सुखदेव सिंह विक्र (01718-बी)
7. कमांडर सुनील जैन (40912-एफ)
8. कमांडर जयवीर सिंह मलिक (02479-एच)
9. कमांडर विद्युत काक (50914-एन)
10. कमांडर थोम्पिल वर्गीज थोमस (41040-वाई)
11. कमांडर महेन्द्र वीर सिंह नेगी (03275-टी)
12. कमांडर(टी एस) शलभ निर्मल चन्द्र श्रीवास्तव (02698-एफ)

ब.रु.मि. (बरुण मित्रा)  
(बरुण मित्रा)  
निदेशक

संख्या 35—प्रेज/2004 — राष्ट्रपति निम्नलिखित कार्मिकों को उनके असाधारण कर्तव्यप्रशयणतापूर्ण कार्यों के लिए “वायुसेना मेडल / एयर फोर्स मेडल” प्रदान किए जाने का अनुमोदन करते हैं:—

1. ग्रुप कैप्टन नरेन्द्र कुमार भोन, वीएसएम (14312), एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रॉनिक्स)
2. ग्रुप कैप्टन राजू स्टीफन (14689) फ्लाईंग (पायलट)
3. ग्रुप कैप्टन नसीब सिंह कादियान (15025) फ्लाईंग (पायलट)
4. ग्रुप कैप्टन कोदन्डा चित्राजीत करियपा (15038) फ्लाईंग (पायलट)
5. ग्रुप कैप्टन अशोक लाल (16031) फ्लाईंग (पायलट)
6. ग्रुप कैप्टन मैथ्यूज मैमन (16618) फ्लाईंग (पायलट)
7. विंग कमांडर अश्वनि कुमार नाभ (16608) फ्लाईंग (पायलट)
8. विंग कमांडर शरद तिवारी (16616) फ्लाईंग (पायलट)
9. विंग कमांडर प्रशान्त नागराज कौशिक (16783) फ्लाईंग (पायलट)
10. विंग कमांडर मायकल फरनानडीस (16967) फ्लाईंग (पायलट)
11. विंग कमांडर विवेक राम चौधरी (16978) फ्लाईंग (पायलट)
12. विंग कमांडर बाबू गुट्टी कोन्डा अमर प्रसाद (17714) फ्लाईंग (पायलट)
13. विंग कमांडर मयंक तिवारी (17719) फ्लाईंग (पायलट)
14. स्क्वाड्रन लीडर गोपीनाथ गिरिश कुमार (20179) फ्लाईंग (पायलट)

बसन्त मित्रा

(बसन्त मित्रा)

निदेशक

संख्या 36—प्रेज/2004 — राष्ट्रपति “ऑपरेशन पराक्रम” के संबंध में रक्षा मंत्री द्वारा सेनाध्यक्ष से प्राप्त “उल्लेखपत्रों” के अनुसार निम्नलिखित अफसरों/कार्मिकों के नाम भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए जाने का आदेश देते हैं:—

1. आईसी-47897 मेजर विश्वनाथ, 16 कुमाऊ
2. आईसी-50463 मेजर ईश्वर सिंह थापा, एसएम, 4 मराठा लाइट इन्फैंट्री
3. आईसी-54452 मेजर एनवी नंजुदेशवरा, आर्टिलरी, 321 फील्ड रेजिमेंट
4. आईसी-57385 मेजर हितेश कुमार धनखड़, 10 जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री
5. 19208 स्क्वॉड्रन लीडर इन्द्रनील भट्टाचार्य, 130 हेलीकॉप्टर यूनिट, 17 राष्ट्रीय राइफल
6. आईसी-59192 कैप्टन संदीप सिंह रंधावा, एएससी, 18 मद्रास
7. 24539 फ्लाइट लेफ्टिनेंट नीकुंज मोहन अरोड़ा, 130 हेलीकॉप्टर यूनिट, 17 राष्ट्रीय राइफल
8. आईसी-61929 लेफ्टिनेंट राजेश कुमार, 4 मराठा लाइट इन्फैंट्री
9. एसएस-39022 लेफ्टिनेंट अहमर इकबाल, आर्टिलरी, 318 फील्ड रेजिमेंट
10. जेसी-489090 नायब सूबेदार जगदीश कुमार, 19 जाट
11. 3176570 हवलदार सुखबीर सिंह, 7 जाट
12. 9085307 हवलदार मोहम्मद इकबाल, 10 जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री
13. 9088536 हवलदार मोहम्मद सादिक, 13 जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री
14. 9415504 हवलदार लुम्बा धोज राई, 6/11 गोरखा राइफल
15. 2883853 नायक लियाकत अली, 6 राजपूत राइफल
16. 2601583 लांस नायक बाला मस्तान रेड्डी असादी, 18 मद्रास
17. 9096149 लांस नायक जनकार चंद, 13 जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री
18. 3391326 सिपाही बलविन्दर सिंह, 10 सिख
19. 9421080 राइफलमैन डम्बर बहादुर चेमजॉंग, 6/11 गोरखा राइफल
20. 15562385 सैपर प्रविन दशरथ शिरके, 103 इंजीनियर रेजिमेंट

ब.रुण मित्रा  
(बरुण मित्रा)  
निदेशक

मानव संसाधन विकास मंत्रालय  
(माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 16 फरवरी 2004

सं. एफ. 9-49/2001-यू.3--विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर एतद्वारा कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर, उड़ीसा को उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ तत्काल से इस आधार पर सम-विश्वविद्यालय के रूप में घोषित करती है कि इसकी पांच वर्ष बाद समीक्षा की जाएगी।

रवि माथुर  
संयुक्त सचिव

दिनांक 20 फरवरी 2004

सं. एफ. 9-1/2001-यू.3--विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर मोदी शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, लक्ष्मणगढ़, राजस्थान, जिसके अन्तर्गत नीचे दी गई दो संस्थाएं आती हैं, को उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ तत्काल से इस आधार पर सम-विश्वविद्यालय के रूप में घोषित करती है कि इसकी पांच वर्ष बाद समीक्षा की जाएगी।

- (i) मोदी इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी कॉलेज; और
- (ii) मोदी प्रबंधन अध्ययन कॉलेज

रवि माथुर  
संयुक्त सचिव

दिनांक 31 मार्च 2004.

सं. एफ. 9-5/2002-यू.3--विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर एतद्वारा मीनाक्षी उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान अकादमी, चेन्नै को उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ तत्काल से सम-विश्वविद्यालय के रूप में घोषित करती है।

रवि माथुर  
संयुक्त सचिव

**PRESIDENT'S SECRETARIAT**

New Delhi, the 26<sup>th</sup> January, 2004

No. 22–Pres/2004 - The President is pleased to approve the award of the "**Param Vishisht Seva Medal**" to the undermentioned personnel for distinguished service of the most exceptional order:-

1. IC-15492 LIEUTENANT GENERAL RANJIT SINGH NAGRA, VSM\*, ARTILLERY
2. IC-15690 LIEUTENANT GENERAL SHANTONU CHOUDHRY, AVSM, VSM, ARTILLERY
3. IC-15831 LIEUTENANT GENERAL ARVIND KUMAR, AVSM, ARMoured
4. IC-16033 LIEUTENANT GENERAL JITENDRA SINGH VARMA, AVSM, ARMoured
5. IC-16078 LIEUTENANT GENERAL JOGINDER JASWANT SINGH, AVSM, VSM, INFANTRY
6. IC-16095 LIEUTENANT GENERAL JAI BHAGWAN SINGH YADAVA, AVSM, VrC, VSM INFANTRY
7. IC- 16109 LIEUTENANT GENERAL HARI PRASAD, AVSM, VSM, INFANTRY
8. IC-16234 LIEUTENANT GENERAL BHUPENDER SINGH THAKUR, AVSM, ARMoured
9. IC-16313 LIEUTENANT GENERAL VINAYAK GOPAL PATANKAR, UYSM, VSM, ARTILLERY
10. IC- 16542 LIEUTENANT GENERAL VIJAY KUMAR JETLEY, UYSM, INFANTRY
11. IC-16543 LIEUTENANT GENERAL BALRAJ SINGH TAKHAR, VSM, ARMoured
12. IC-16545 LIEUTENANT GENERAL GAMBIR SINGH NEGI, AVSM\*, VSM, INFANTRY
13. IC-16783 LIEUTENANT GENERAL TEJ PRATAP SINGH BRAR, YSM, INFANTRY
14. IC-16838 LIEUTENANT GENERAL MOHINDER SINGH, AVSM, INFANTRY
15. IC-17240 LIEUTENANT GENERAL RICHARD KHARE, AVSM, SM, VSM, INFANTRY
16. IC- 17244 LIEUTENANT GENERAL NIRBHAY SHARMA, AVSM, VSM, INFANTRY
17. IC-21254 LIEUTENANT GENERAL HARBANS SINGH KANWAR, AVSM, VSM, INFANTRY

18. IC-22834 LIEUTENANT GENERAL BITTIANDA KARIAPPA BOPANNA, AVSM, VSM, INFANTRY
19. IC-19029 MAJOR GENERAL ANAND SAGAR BHAGAT, AVSM, SM, SIGNALS
20. IC-16300 MAJOR GENERAL MANMOHAN SINGH, AVSM, SIGNALS (RETD.)
21. VICE ADMIRAL LESLIE ALEXANDER LOWE, AVSM, VSM (40202-T)
22. VICE ADMIRAL SRINIVASA VARADACHARI GOPALACHARI, AVSM, VSM (00713-W)
23. VICE ADMIRAL SATISH CHANDRA SURESH BANGARA, AVSM (00726-Z)
24. AIR MARSHAL ANIL KUMAR TRIKHA, AVSM, VSM (8436) FLYING (PILOT) (RETD.)
25. AIR MARSHAL BRIJENDRA MOHAN BALI, AVSM, VM (8438) FLYING (PILOT)
26. AIR MARSHAL BIJOY KRISHNA PANDEY, AVSM, VM (8990) FLYING (PILOT)
27. AIR MARSHAL NARAYAN MENON, UYSM, AVSM (9005) FLYING (PILOT)
28. AIR MARSHAL RAGHU RAJAN (8997) FLYING (PILOT)
29. AIR MARSHAL PRAKASHCHANDRA KHANDUBHAI DESAI, AVSM, VSM (10078), AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)

(BARUN MITRA)  
DIRECTOR

No. 23—Pres/2004 - The President is pleased to approve the award of the "**Uttam Yuddh Seva Medal**" to the undermentioned personnel for distinguished service of an exceptional order during hostilities:-

1. IC-19009 MAJOR GENERAL HARDEV SINGH LIDDER, YSM, VSM, PARA/HQ CIF(R)
2. IC-19396 MAJOR GENERAL DEEPAK HARISHCHANDRA SUMMANWAR, VSM, RAJPUTANA RIFLES/HQ 8 MOUNTAIN DIVISION
3. IC-23291 MAJOR GENERAL JAYANTA KUMAR MOHANTY, SM, VSM, DOGRA/HQ 28 INF DIV
4. IC-26838 MAJDR GENERAL SATYEVIR YADAV, AVSM, KUMAON/HQ CIF(K)
5. REAR ADMIRAL JAGJIT SINGH BEDI, AVSM, VSM (01002-A)

(BARUN MITRA)  
DIRECTOR

No. 24—Pres/2004 - The President is pleased to approve the award of the "**Bar to Ati Vishisht Seva Medal**" to the undermentioned personnel for distinguished service of an exceptional order:-

1. IC-16618 LIEUTENANT GENERAL RAJINDER BIR SINGH, AVSM, YSM INFANTRY/ HQ 14 CORPS
2. IC-17640 MAJOR GENERAL KAMAL KRISHNA KHANNA, AVSM INFANTRY/HQ NORTHERN COMMAND
3. IC-16261 MAJOR GENERAL CHARANJIT SINGH BRAR, AVSM, ARMoured CORPS (RETD.)

(BARUN MITRA)  
DIRECTOR

No. 25–Pres/2004 - The President is pleased to approve the award of the **“Ati Vishisht Seva Medal”** to the undermentioned personnel for distinguished service of an exceptional order:-

1. IC- 16038 LIEUTENANT GENERAL YASH MALHOTRA, ENGINEERS/CME, PUNE
2. IC-16139 LIEUTENANT GENERAL SATISH BHALCHANDRA SATPUTE, INFANTRY/HQ SOUTHERN COMMAND
3. IC-16249 LIEUTENANT GENERAL RAVINDER KUMAR RAICHAND, ENGINEERS/HQ ARMY TRAINING COMMAND
4. IC- 16250 LIEUTENANT GENERAL RAGHUBIR SINGH SHAHRAWAT, VSM, ARMY ORDNANCE CORPS
5. IC-16567 LIEUTENANT GENERAL VIRINDER KUMAR DHIR, CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS
6. IC-17242 LIEUTENANT GENERAL DIGVIJAY PAL SINGH, INFANTRY
7. IC-17895 LIEUTENANT GENERAL MADABUSHI KRISHNAMA CHARI, ENGINEERS
8. MR-02064 LIEUTENANT GENERAL RAMJI RAI, VSM, ARMY MEDICAL CORPS/ARMY HOSPITAL(R&R)
9. IC-16289 MAJOR GENERAL BHOPINDER SINGH, VSM, INFANTRY/HQ SPECIAL FRONTIER FORCE
10. IC-16833 MAJOR GENERAL BASANT SINGH, YSM, INFANTRY
11. IC-16925 MAJOR GENERAL RUPENDRA SINGH BATRA, VSM, EME/HQ NORTHERN COMMAND
12. IC-17239 MAJOR GENERAL BACHITTAR SINGH DHALIWAL, VSM, ENGINEERS/HQ SOUTHERN COMMAND
13. IC-17279 MAJOR GENERAL CHARANJIT SINGH, VSM, ARTILLERY
14. IC-17631 MAJOR GENERAL ASHOK VASUDEVA, VSM, ARTILLERY
15. IC-19048 MAJOR GENERAL PRAVIN KUMAR JANMEJA, SIGNALS/HQ NORTHERN COMMAND



16. IC-19391 MAJOR GENERAL BALDEV SINGH PAWAR,  
ARTILLERY/HQ WESTERN COMMAND
17. IC-19485 MAJOR GENERAL RANDHIR SINH, UYSM, SM,  
INFANTRY/ HQ 25 INFANTRY DIVISION
18. IC-19846 MAJOR GENERAL HARINDER SINGH BATRA, VSM,  
INFANTRY/HQ 2 MOUNTAIN DIV.
19. IC-19886 MAJOR GENERAL YOGENDRA KUMAR JAIN, ENGINEERS
20. IC-23030 MAJOR GENERAL PRAKASH SINGH CHAUDHARY, SM, VSM,  
INFANTRY/HQ CIF (D)
21. IC-23295 MAJOR GENERAL JASBIR SINGH LIDDER, UYSM, GRENADIERS/HQ CIF(V)
22. IC-24528 MAJOR GENERAL UTPAL BHATTACHARYYA,  
ENGINEERS/HQ CENTRAL COMMAND
23. IC-28531 MAJOR GENERAL TEJ KRISHEN KAUL, VSM, INFANTRY/HQ M&G AREA
24. IC-28805 MAJOR GENERAL KULWANT SINGH DOGRA, VSM,  
AIR DEFENCE ARTILLERY
25. DR-10267 MAJOR GENERAL PARAMJIT SINGH, VSM\*,  
ARMY DENTAL CORPS/DTE GENERAL DS, ARMY HQ
26. IC-16552 MAJOR GENERAL MRINAL SUMAN, VSM, ENGINEERS (RETD)
27. MR-02462 BRIGADIER AJAI PRATAP SINGH, VSM, ARMY MEDICAL CORPS
28. IC-27580 BRIGADIER SHRUTI KANT, VSM, ARMY EDUCATION CORPS (RETD)
29. IC-41680 COLONEL ASHOK ABBEY, DOGRA/NIM UTTARKASHI
30. VICE ADMIRAL DATLA SAI PRASAD VARMA, VSM (50199-N)
31. REAR ADMIRAL RAMAN PREM SUTHAN, VSM (01137-H)
32. REAR ADMIRAL NIJAM MAHAMAD NADAPH, VSM (40305-A)
33. REAR ADMIRAL BRIJ KRISHNA KAUL (50272-B)
34. SURGEON REAR ADMIRAL PANAMPILLY SIVADAS (75112-H)
35. COMMODORE SANJOY GUPTA, VSM (01212-B)
36. COMMODORE BIRINDER SINGH BAJWA (60166-R)

37. AIR VICE MARSHAL GORDON PETER D'SOUZA (10984) LOGISTICS
38. AIR VICE MARSHAL ARVIND KUMAR NAGALIA VM VSM (11633) FLYING (PILOT)
39. AIR VICE MARSHAL BALATIKALANDRA UTHAIAH CHENGAPPA, VSM (12112)  
AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
40. AIR VICE MARSHAL JAYANT SATCHIDANAND APTE (11900)  
AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
41. AIR COMMODORE PRAVESH KUMAR (12411), FLYING (PILOT)
42. AIR COMMODORE SHAKTI BHUSHAN PRASHAR, VSM (12442)  
AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL) (RETD.)
43. AIR COMMODORE VIVEK KUMAR CHOPRA VSM (12752) FLYING (PILOT)
44. AIR COMMODORE DHIRAJ KUKREJA VSM (13130), FLYING (PILOT)
45. AIR COMMODORE SANJAY KUMAR JAYASWAL, VM (13134) FLYING (PILOT)
46. AIR COMMODORE RAM RATTAN BHARDWAJ, VSM (13337)  
AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)
47. GROUP CAPTAIN JASVINDER CHAUHAN, VSM (14079) FLYING (PILOT)
48. GO-759N ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL RAMAN SINGH, VSM (RETD.)



(BARUN MITRA)  
DIRECTOR

No. 26—Pres/2004 - The President is pleased to approve the award of the "Yuddh Seva Medal" to the undermentioned personnel for distinguished service of a high order during hostilities:-

1. IC-27779 BRIGADIER VINAY KUMAR PATIL  
11 GORKHA RIFLES/HQ 10 INF BDE
2. IC-27782 BRIGADIER P.G. KAMATH, SM, MADRAS/HQ 93 INF BRIGADE
3. IC-27962 BRIGADIER KANWAR VIJAY SINGH LALOTRA, SM,  
11 GR/HQ 120 INF BRIGADE
4. IC-32453 BRIGADIER WILLIAM JAMES BIRD STURGEON, SM,  
8 GORKHA RIFLES/HQ 93 INFANTRY BRIGADE
5. IC-35974 COLONEL SANJAY RAGHUNATH PHATAK,  
11 MARATHA LIGHT INFANTRY
6. IC-39436 COLONEL SATINDER KUMAR SAINI, 7 JAT
7. IC-39470 COLONEL MAN MOHAN GUPTA, 1 ASSAM
8. IC-40476 COLONEL ASHOK GALOTH, 3 PARACHUTE REGIMENT
9. IC-54071 MAJOR ABHIJIT AVINASH BHAMBERE  
1/5 GORKHA RIFLES(FRONTIER FORCES)
10. REAR ADMIRAL DEVENDRA KUMAR JOSHI, NM, VSM (01507-Z)
11. COMMANDER SOONIL VASANT BHOKARE, NM (02654-F)
12. COMMANDER KULDEEP MITTAL (03193-F)
13. LIEUTENANT RAVI KUMAR (04669-K)



(BARUN MITRA)  
DIRECTOR

No. 27—Pres/2004 - The President is pleased to approve the award of the "Bar to Vishisht Seva Medal" to the undermentioned personnel for distinguished service of a high order:-

1. IC-19445 MAJOR GENERAL RAJIV CHOPRA, VSM  
ARTILLERY
2. IC-19430 BRIGADIER RAMENDRA KUMAR, VSM, GRENADIERS
3. AIR COMMODORE VIJAY KUMAR DAYALU VSM (13096), ADMINISTRATION



(BARUN MITRA)  
DIRECTOR

No. 28—Pres/2004 - The President is pleased to approve the award of the "**Vishisht Seva Medal**" to the undermentioned personnel for distinguished service of a high order:-

1. IC-16935 MAJOR GENERAL SUBHASH CHANDER  
SIGNALS/HQ SOUTHERN COMMAND
2. IC-17644 MAJOR GENERAL DALJEET SINGH  
ARMOURED/ HQ SOUTHERN COMMAND
3. IC-23978 MAJOR GENERAL NILENDRA KUMAR, JAG
4. IC-24178 MAJOR GENERAL PRABODH CHANDRA BHARDWAJ, Vrc, SC, PARA
5. IC-24194 MAJOR GENERAL MANBIR SINGH DADWAL, DOGRA
6. IC-24198 MAJOR GENERAL CHANDROTH KUNNUMAL SUCHINDRA SABU,  
ARTILLARY
7. IC-16823 MAJOR GENERAL DAVINDER KUMAR BEWTRA, SIGNALS (RETD)
8. IC-19455 BRIGADIER CHARANJEET SINGH,  
ENGINEERS/HQ NORTHERN COMMAND
9. IC-23037 BRIGADIER PRAKASH TULARAMRAO GHOGALE,  
GUARDS/ TA GROUP HQ SC
10. IC-23277 BRIGADIER AJAY KUMAR PAHWA  
GUARDS/ HQ RECRUITMENT ZONE, JALANDHAR CANTT
11. IC-23304 BRIGADIER PRABIR GOSWAMI, ARMOURED CORPS, HQ IDS
12. IC-23323 BRIGADIER UPPAL SUDHEER KUMAR  
MECHANISED INFANTRY, HQ DELHI AREA
13. IC-23713 BRIGADIER MADAN MOHAN TRIVEDI, SIGNALS
14. IC-24217 BRIGADIER KHANZODE KISHOR KUMAR VISHNU,  
INTELLIGENCE CORPS/INT TRG SCHOOL & DEPOT

15. IC-24753 BRIGADIER DESH DEEPAK KAPOOR, ARTILLERY
16. IC-25190 BRIGADIER DEEPAK BAJAJ  
ARMoured CORPS/HQ SOUTHERN COMMAND
17. IC-25512 BRIGADIER KAMAL KUMAR  
CORPS OF ELECTRONICS & MECHANICAL ENGINEER/HQ 21 CORPS
18. IC-27022 BRIGADIER ANIL KUMAR LAL, PUNJAB/HQ 9(I) MTN BDE
19. IC-27187 BRIGADIER P V SURENDRANATHAN,  
CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS
20. IC-27205 BRIGADIER VINAY BHATNAGAR  
5 GORKHA RIFLES/HQ 64 MOUNTAIN BRIGADE
21. IC-27244 BRIGADIER JOGINDER SINGH MANN  
KUMAON/HQ 77 MOUNTAIN BRIGADE
22. IC-27761 BRIGADIER CHANDER PRAKASH,  
ARTILLERY/HQ 7 SEC RASHTRIYA RIFLES
23. IC-27953 BRIGADIER JASJIT SINGH GOSAL  
3 GORKHA RIFLES/HQ NORTHERN COMMAND
24. IC-29336 BRIGADIER MAHI PAL SINGH, ARTILLERY/HQ KK&G SUB AREA
25. IC-29889 BRIGADIER AMARJIT SINGH, ENGINEERS/HQ CE(P) HIMANK
26. IC-32550 BRIGADIER RAJ KRISHAN MALHOTRA  
JAT/HQ 190 MOUNTAIN BRIGADE
27. IC-32792 BRIGADIER NELLAMAKKADA NANJAPPA MADAPPA,  
MECH INFANTRY/ HQ 7 SECTOR, ASSAM RIFLES
28. IC-33414 BRIGADIER BINOD KUMAR, ENGRS/HQ 123 MTN BDE
29. IC-33557 BRIGADIER RASHEED ENAYATHULLA, DOGRA
30. IC-33887 BRIGADIER SURINDER SINGH, ARMY ORDNANCE CORPS
31. MR-02670 BRIGADIER MUNINDRA SRIVASTAVA  
ARMY MEDICAL CORPS/92 BASE HOSPITAL
32. MR-03364 BRIGADIER NARESH KUMAR PARMAR, VrC, ARMY MEDICAL CORPS
33. IC-30731 COLONEL HARMEET SINGH DHOT  
CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS/MCEME
34. IC-31568 COLONEL ANJUM SHAHAB, SIGNALS

35. IC-33434 COLONEL VED PAL SINGH, KUMAON/HQ 21 MOUNTAIN DIVISION
36. IC-34019 COLONEL DEEPENDRA SINGH HOODA, 4/4 GORKHA RIFLES
37. IC-34028 COLONEL ANIRUDDHA CHAKRAVARTY, RAJPUT
38. IC-34070 COLONEL NJ SINGH, ARMoured CORPS/HQ EC
39. IC-34849 COLONEL JOHN DE BRITTO, YSM, PARA/15 CORPS BATTLE SCHOOL
40. IC-36725 COLONEL ALBERT PHILIP SAMUEL PAKIANATHAN, 18 SIKH
41. IC-37217 COLONEL RAJESH KUMAR, ARTILLERY/51 FIELD REGIMENT
42. IC-37687 COLONEL C SANDEEP KUMAR, 1 MARATHA LIGHT INFANTRY
43. IC-38606 COLONEL RAJAT RASTOGI, ENGRS
44. IC-38749 COLONEL SHYAM MOHAN MURARI  
AIR DEFENCE ARTILLERY/510 LIGHT AD MISSILE REGIMENT
45. IC-38792 COLONEL PANKAJ MALHOTRA  
CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS
46. IC-38812 COLONEL PRADEEP KUMAR SINGH, SM, 6 RAJPUT
47. IC-39490 COLONEL VIJAY SINGH SHEKHAWAT, SM, PARA/6 ASSAM RIFLES
48. IC-39624 COLONEL PRADEEP MOORTI BALI, 24 PUNJAB
49. IC-39808 COLONEL GURDIP SINGH, SM, 12 ENGINEER REGIMENT
50. IC-39865 COLONEL MICHAEL MATHEWS, 103 ENGINEER REGIMENT
51. IC-39872 COLONEL ANIL KAPOOR, 626 EME BATTALION
52. IC-40158 COLONEL ANUJ KAINTHLA, 21 JAT
53. IC-40290 COLONEL BIPIN BAKSHI, 102 ENGINEER REGIMENT
54. IC-40364 COLONEL GAJENDRA PRASAD, 3 DOGRA
55. IC-42609 COLONEL SUDHIR SINGH AHLAWAT  
ARMY SERVICE CORPS/877 AT BATTALION ASC
56. MR-03318 COLONEL PRADEEP BHARGAVA, ARMY MEDICAL CORPS/CH HQ NC
57. MR-03240 COLONEL BIKRAM KUMAR SINGH, SM,  
ARMY MEDICAL CORPS/ARMY HOSPITAL (R&R)
58. MR 03247 COLONEL DIPANKAR GANGULY,  
ARMY MEDICAL CORPS/RR HOSPITAL

59. MR-03436 COLONEL CHARANJIT SINGH, ARMY MEDICAL CORPS/MH (CTC)
30. MR 03691 COLONEL RAJAN CHAUDHRY  
ARMY MEDICAL CORPS/ COMMAND HOSPITAL HQ(NC)
61. IC-38059 LIEUTENANT COLONEL MUKESH KUMAR GUPTA,  
ARTILLERY/1841 LIGHT REGT
62. IC-40223 LIEUTENANT COLONEL SATISH CHANDER SHARMA, SC, DOGRA
63. IC-43854 LIEUTENANT COLONEL ALOK DATTA SARDANA,  
CORPS OF ELECTRICAL MECNICAL ENGINEERING/HQ TG EME
64. IC-45246 LIEUTENANT COLONEL ISHWINDER SINGH SEHDEVA, 18 MADRAS
65. MR-03856 LIEUTENANT COLONEL VELU NAIR  
ARMY MEDICAL CORPS/ARMY HOSPITAL(R& R)
66. MR-04434 LIEUTENANT COLONEL RAJAN SINGH GREWAL,  
ARMY MEDICAL CORPS/ COMMAND HQ (WC)
67. MR-04726 LIEUTENANT COLONEL RAJAT DATTA,  
ARMY MEDICAL CORPS/COMMAND HOSPITAL HQ (WC)
68. MR-05272 LIEUTENANT COLONEL SHARDENDU UPADHYAY,  
ARMY MEDICAL CORPS/AFC
69. MR-05858 LIEUTENANT COLONEL VINOD RAGHAVA,  
ARMY MEDICAL CORPS/BH DELHI CANTT
70. IC-44457 MAJOR RAKESH KUMAR DHAR, INTELLIGENCE/28 DIV INT UNIT
71. IC-48236 MAJOR CHANDRA SHEKHAR MANDA, ARTILLERY/9 PARA FD REGT
72. IC-50002 MAJOR SAMEER LANBA, ARMY SERVICE CORPS/853 AT COY ASC
73. SL-03765 MAJOR DINA NATH SHARMA, GENERAL SERVICE/ JAK LI RECORDS
74. SL-04590 CAPTAIN ARJUN SINGH CHEEMA, EME, 948 ADMISSILE REGIMENT WK SP
75. COMMODORE FALI HOMI DUBASH, (60208-K)
76. COMMODORE AJOY KUMAR PATNAIK (01188-Z)
77. COMMODORE BOLA RADHAKRISHNA RAO, NM (01249-N)
78. COMMODORE PARAS NATH (02373-T)
79. COMMODORE SEEBHAVI PATEL RAMESH REDDY, (01358-K)
80. COMMODORE SANKARAN MAMPULLY (01748-Y)

81. COMMODORE SURYA KUMAR CHANDRA, (50212-T) (RETD)
82. COMMODORE RAKESH BAJAJ, (50560-H)
83. COMMODORE SRINIVASAN VENKATARAMAN, (50505H)
84. COMMANDER JASBIR SINGH GANDHI (01290-F)
85. COMMANDER JAYANTI VENKATARAMANA MOORTY(70202-Z)
86. COMMANDER PRATAP SINGH VERMA (40832-Z)
87. COMMANDER-AT-ARMS SUNIL KUMAR MINHAS (02475-Z)
88. COMMANDER NAWAZ AHMED (02924-W) (POSTHUMOUS)
89. SURGEON LIEUTENANT COMMANDER PRAMOD KUMAR SRIVASTAVA(75606-F)
90. BIRENDER KUMAR RAI, MCPO II CD I (203558-H)
91. AIR VICE MARSHAL DEEPAK KUMAR SEN (11915)  
AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
92. AIR COMMODORE INDU BHAAL BHASIN (12871),  
AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)
93. AIR COMMODORE SANT PARKASH SINGH VIRK (13491),  
AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
94. AIR COMMODORE ASHOK DHAR (13940), FLYING (PILOT)
95. GROUP CAPTAIN RAJEEV KUMAR (13116) ACCOUNTS
96. GROUP CAPTAIN RATAN BIR KALRA (13690) ACCOUNTS
97. GROUP CAPTAIN MAN MOHAN DOGRA (13755) MEDICAL
98. GROUP CAPTAIN SANJIV MISRA, SC (14094), FLYING (PILOT)
99. GROUP CAPTAIN ASHOK KUMAR SINHA (14336),  
AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
100. GROUP CAPTAIN DILIP RAGHAVENDRA DANI (14346)  
AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)
101. GROUP CAPTAIN ASHOK SINGHAL (14615)  
AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
102. GROUP CAPTAIN AMIT ANEJA, VM (14668) FLYING (PILOT)
103. GROUP CAPTAIN MOHANACHANDRAN PANICKER (14704)  
ADMINISTRATION/AIR TRAFFIC CONTROLLER



104. GROUP CAPTAIN CHENNUPATI RAMACHANDRA PRASAD (14998)  
FLYING (NAVIGATOR)
105. GROUP CAPTAIN YADUNATH JAYRAM SATHE (15044) LOGISTICS
106. GROUP CAPTAIN DATTATRAY KESHAO PANDE (15081) AERONAUTICAL  
ENGINEERING (ELECTRONICS)
107. GROUP CAPTAIN ANIRUDDH PRABHAKAR KADUSKAR (15189) FLYING (PILOT)
108. GROUP CAPTAIN ANUP GHOSH (15563), FLYING (PILOT)
109. GROUP CAPTAIN HEMANT SHARMA (15941)  
AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRICAL)
110. GROUP CAPTAIN PANKAJ ANEJA (15975)  
AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)
111. WING COMMANDER TONDA SREE VENKATESH (16796) FLYING (PILOT)
112. WING COMMANDER ARVIND KUMAR DWIVEDI (16979) FLYING (PILOT)
113. WING COMMANDER VELLORE DORAISWAMY ESHWAR (16994) FLYING(PILOT)
114. WING COMMANDER THAZHE PARA HARIPRASAD (17036) ADMINISTRATION
115. SQUADRON LEADER MAHESH KUMAR ABROL (17391) ADMINISTRATION
116. SQUADRON LEADER VINEET GOEL (20699)  
AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)
117. BRIGADIER VINOD KUMAR SHARMA (IC-24726F) ENGINEERS
118. GO-1332W CHIEF ENGINEER (CIVIL) SALIL ROY CHOWDHARY
119. GO-1336M CHIEF ENGINEER (CIVIL) DIPENDRA KUMAR BANERJEE



(BARUN MITRA)  
DIRECTOR

No. 29—Pres/2004 - The President is pleased to approve the award of the "**Bar to Sena Medal/Army Medal**" to the undermentioned personnel for the acts of exceptional courage:-

1. IC-39879 COLONEL ANUP KRISHAN DHAR, SM  
PARA/12 ASSAM RIFLES
2. IC-40751 LIEUTENANT COLONEL SURENDRA KUMAR, SM,  
ARMY AVIATION/22(I)R&O FLIGHT
3. IC-53643 MAJOR HITENDRA UTTAMRAO MARATHE, SM,  
13 JAMMU & KASHMIR LIGHT INFANTRY
4. 4063092 HAVILDAR DATA RAM, SM, 4 GARHWAL RIFLES



(BARUN MITRA)  
DIRECTOR

No. 30—Pres/2004 - The President is pleased to approve the award of the "**Sena Medal/Army Medal**" to the undermentioned personnel for the acts of exceptional courage:-

1. IC-37328 COLONEL JASPAL SINGH PAMA, 2/3 GORKHA RIFLES
2. IC-39365 COLONEL HARINDRA KUMAR SHRAWAT, MADRAS/8 RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)
3. IC-42285 COLONEL SATYA PRAKASH RAWAT RAJPUTANA RIFLES/43 RASHTRIYA RIFLES
4. IC-45125 COLONEL JAI NARAYAN SINGH BISHT, VrC, 11 MARATHA LIGHT INFANTRY
5. IC-43669 LIEUTENANT COLONEL SHIVPAL SINGH, GRENADIER/29 RASHTRIYA RIFLES
6. IC-44617 MAJOR RAKESH DESWAL, MAHAR/1 RASHTRIYA RIFLES
7. IC-46475 MAJOR TEGH SINGH SOMAL, 17 GARHWAL RIFLES/36 RR
8. IC-46795 MAJOR JAGDEEP SINGH, 4 GRENADIERS
9. IC-47833 MAJOR SUKHMINDER SINGH, ARTILLERY/45 RASHTRIYA RIFLES
10. IC-49443 MAJOR VISHAL SHARMA, GRENADIERS/29 RASHTRIYA RIFLES
11. IC-49573 MAJOR NITIN KHARE, 19 JAT
12. IC-49588 MAJOR MOHINDER PAL SINGH, 18 JAMMU & KASHMIR RIFLES
13. IC-49762 MAJOR RAJ RATAN CHAHAR, 16 SIKH LIGHT INFANTRY
14. IC-49987 MAJOR DIPENDER SINGH, ARMY AVIATION/3 R&O FLIGHT
15. IC-50865 MAJOR AMIT KUMAR SINGH, 18 SIKH
16. IC-51793 MAJOR INDER SINGH, ENGINEERS/9 RASHTRIYA RIFLE
17. IC-51923 MAJOR VINOD KUMAR RANA ARMoured CORPS/37 RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)


18. IC-52086 MAJOR AMRIK SINGH, PUNJAB/7 RASHTRIYA RIFLES
19. IC-52146 MAJOR RAVINDER NARWAL  
ARMoured CORPS/30 RASHTRIYA RIFLES
20. IC-52981 MAJOR GYAN PRAKASH CHOWDHARY  
ARTILLERY/18 RASHTRIYA RIFLES
21. IC-53257 MAJOR SACHINDER TIWARI, MAHAR/1 RASHTRIYA RIFLES
22. IC-54165 MAJOR NAVNEET BAKSHI  
MARATHA LIGHT INFANTRY/27 RASHTRIYA RIFLES
23. IC-54478 MAJOR DIPU SIROHI, MECHANISED INFANTRY/35 RASHTRIYA RIFLES
24. IC-54698 MAJOR RAJESHWAR PARMAR, 8 MADRAS
25. IC-55021 MAJOR NATWAR SINGH SHAKTAWAT,  
ARMY SERVICE CORPS/4 RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)
26. IC-55534 MAJOR DIWAN SINGH DHAMI, 5/8 GORKHA RIFLES
27. IC - 55648 MAJOR LOKESH KUMAR, 19 GARHWAL RIFLES
28. IC-55757 MAJOR VIPIN KAUSHAL, GUARDS/21 RASHTRIYA RIFLES
29. IC-56607 MAJOR CINGIREDDY BHARAT KUMAR, 2 PARA(SPECIAL FORCES)
30. IC-57130 MAJOR VIPUL SINGH RAJPUT,  
GRENADEIERS/39 RASHTRIYA RIFLES
31. IC-57419 MAJOR S VIJAY KUMAR, MAHAR/1 RASHTRIYA RIFLES
32. IC-57615 MAJOR ABHINANDAN SINGH  
1 GORKHA RIFLES/15 RASHTRIYA RIFLES
33. IC-58026 MAJOR BHUPENDRA SINGH KANDARI,  
RAJPUTANA RIFLES/43 RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)
34. IC-58183 MAJOR ASHOK ARYA, DOGRA/11 RASHTRIYA RIFLES
35. RC-1068 MAJOR HARPAL SINGH, 22 SIKH (POSTHUMOUS)
36. IC-59387 CAPTAIN ARVIND KUMAR TIWARI  
SIGNALS/22 SPECIAL SECURITY FORCE
37. IC-59641 CAPTAIN AJAY SHARMA, AOC, 16 SIKH LIGHT INFANTRY
38. IC-59685 CAPTAIN KAPIL ARORA, 21 JAT
39. IC-59985 CAPTAIN DIPANKAR BASU, 16 SIKH LIGHT INFANTRY

40. SS-37466 CAPTAIN DINESH SINGH  
ENGINEERS/19 RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)
41. SS-37609 CAPTAIN VIVEK KANDARI, ARTILLERY/36 RASHTRIYA RIFLES
42. SS-37811 CAPTAIN KANNAN SWAMINATHAN, ARTILLERY/36 RR
43. IC-61073 LIEUTENANT YADLAPALLI VIJAY, 15 RAJPUT
44. IC-61542 LIEUTENANT PANKAJ SHARMA, 16 SIKH LIGHT INFANTRY
45. IC-61347 LIEUTENANT MOHIT SINGH, 1/5 GORKHA RIFLES (FF)
46. IC-62189 LIEUTENANT INDERPREET SINGH DHILLON, ASC, 9 JAT
47. IC-62818 LIEUTENANT LALIT DILIP TAHRABADKAR, 5 BIHAR
48. SS-39016 LIEUTENANT SANJAY BAMRARA,  
1 MARATHA LIGHT INFANTRY
49. SS-39549 LIEUTENANT AJIT KUMAR RAJGURU MISRA, 16 PUNJAB
50. SS-39844 LIEUTENANT SAHAY SELVARAJ THOMAS,  
EME/4 GARHWAL RIFLES (POSTHUMOUS)
51. JC-508014 SUBEDAR MAJOR SUCHA SINGH  
11 SIKH LIGHT INFANTRY (POSTHUMOUS)
52. JC-122498 SUBEDAR BIJOY KUMAR SUBBA, 12 ASSAM RIFLES
53. JC-216785 SUBEDAR SATYAVIR SINGH  
RAJPUTANA RIFLES/18 RASHTRIYA RIFLES
54. JC-519179 SUBEDAR CHAIN SINGH, DOGRA/ 40 RASHTRIYA RIFLES
55. JC-538979 SUBEDAR DALIP SINGH, 18 KUMAON (POSTHUMOUS)
56. JC-617057 SUBEDAR PARDIP THAPA, 4/5 GORKHA RIFLES (POSTHUMOUS)
57. JC-469137 NAIB SUBEDAR RAM DATT SINGH  
11 RAJPUTANA RIFLES (POSTHUMOUS)
58. JC-499147 NAIB SUBEDAR SWARAN SINGH, 3 SIKH
59. JC-539045 NAIB SUBEDAR HARI KRISHAN PANDEY, 8 KUMAON
60. JC-592888 NAIB SUBEDAR SHAMSHER SINGH,  
10 JAMMU & KASHMIR LIGHT INFANTRY
61. JC-612344 NAIB SUBEDAR TEK BAHADUR GURJUNG, 2/4 GORKHA RIFLES
62. JC-569232 NAIB SUBEDAR VIJAI PAL YADAV, 6 MAHAR REGIMENT

63. 1476639 HAVILDAR SAMAR KUMAR MANDAL  
ENGINEERS/39 RASHTRIYA RIFLES
64. 2678105 HAVILDAR PRABHAT CHAND, 4 GRENADIERS
65. 2784292 HAVILDAR MUCHANDI VITTHAL KENCHAPPA,  
MARATHA LIGHT INFANTRY/17 RASHTRIYA RIFLES
66. 2883291 HAVILDAR MUNNA LAL  
RAJPUTANA RIFLES/18 RASHTRIYA RIFLES
67. 3177643 HAVILDAR RANVIR SINGH, 21 JAT
68. 3983942 HAVILDAR RANJIT SINGH, DOGRA/11 RASHTRIYA RIFLES
69. 4067250 HAVILDAR SHAKTI PRASAD,  
GARHWAL RIFLES/36 RASHTRIYA RIFLES
70. 4181408 HAVILDAR VED PRAKASH CHANDRA JOSHI,  
INTELLIGENCE CORPS/739 INTELLIGENCE & FIELD
71. 7430970 HAVILDAR KURIYAN VT, INTELLIGENCE CORPS/NO 2  
DETACHMENT EASTERN COMMAND (POSTHUMOUS)
72. 13614770 HAVILDAR SHEESH RAM GURJAR, 10 PARA (SPECIAL FORCES)
73. 13748757 HAVILDAR RAM DASS, 18 JAMMU & KASHMIR RIFLES
74. 3391674 LANCE HAVILDAR NISHAN SINGH, SIKH/16 RASTRIYA RIFLES
75. 4270977 LANCE HAVILDAR NICOLAS TOPNO, 5 BIHAR
76. 2595101 NAIK BALAPPA SANADI, 7 MADRAS
77. 2686303 NAIK GANGA RAM, 4 GRENADIERS
78. 2989652 NAIK MAN SINGH, RAJPUT/10 RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)
79. 4068984 NAIK RAMESH SHARMA, 4 GARHWAL RIFLES
80. 4475354 NAIK GURJIT SINGH, 16 SIKH LIGHT INFANTRY
81. 2484534 LANCE NAIK SKINDER KUMAR, 23 PUNJAB (POSTHUMOUS)
82. 2485448 LANCE NAIK SAROOP SINGH, 3 PUNJAB (POSTHUMOUS)
83. 2793111 LANCE NAIK KADAM BALAJI BABU, 1 MARATHA LIGHT INFANTRY
84. 2891149 LANCE NAIK SHIMBHU SINGH  
RAJPUTANA RIFLES/18 RASHTRIYA RIFLES
85. 3189226 LANCE NAIK DHARMENDRA SINGH, 21 JAT

86. 3394342 LANCE NAIK RAJINDER SINGH, SIKH/6 RASHTRIYA RIFLES
87. 3990531 LANCE NAIK MALKIT SINGH, 3 DOGRA
88. 4073259 LANCE NAIK SANJIV KUMAR, 15 GARHWAL RIFLES
89. 4076040 LANCE NAIK PRADEEP BHATT  
GARHWAL RIFLES/36 RASHTRIYA RIFLES
90. 4274202 LANCE NAIK CHANDESHWAR PRASAD, 5 BIHAR
91. 13755983 LANCE NAIK UPDESH KUMAR SHARMA,  
15 JAMMU & KASHMIR RIFLES
92. 14429580 LANCE NAIK AVHAD VISHNU BHAGWAN,  
ARTILLERY/36 RASHTRIYA RIFLES
93. 2489218 SEPOY BALWINDER SINGH, 16 PUNJAB
94. 2492191 SEPOY VARINDER SINGH, 16 PUNJAB
95. 2601594 SEPOY SUDHEESH PALAYAKKOT  
MADRAS/38 RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)
96. 2997736 SEPOY BALRAM SINGH, RAJPUT/10 RASHTRIYA RIFLES
97. 2998150 SEPOY BHAGWAN SINGH GURJAR, RAJPUT/44 RASHTRIYA RIFLES
98. 2998936 SEPOY DEVENDRA PRATAP SINGH,  
RAJPUT /10 RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)
99. 3191627 SEPOY SURESH SINGH, JAT/34 RASHTRIYA RIFLES
100. 3397157 SEPOY HARPREET SINGH, SIKH/6 RASHTRIYA RIFLES
101. 3398600 SEPOY RANJIT SINGH, 7 SIKH
102. 3399375 SEPOY GHAR SINGH, SIKH/6 RASHTRIYA RIFLES
103. 4278442 SEPOY BALRAM DHRUW,  
BIHAR/4 RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)
104. 4569314 SEPOY KARAMJEET SINGH, MAHAR/1 RASHTRIYA RIFLES
105. 4571544 SEPOY YOGENDRA KUMAR SHARMA  
6 MAHAR (POSTHUMOUS)
106. 4572379 SEPOY SUBHASH SINGH CHANDRA, 6 MAHAR
107. 15137694 SEPOY PARSHURAM YADAV  
ARTILLERY/30 RASHTRIYA RIFLES

108. 114246 RIFLEMAN TELUGU ADI NARAYAN,  
11 ASSAM RIFLES (POSTHUMOUS)
109. 4078045 RIFLEMAN SUNIL SINGH  
GARHWAL RIFLES/36 RASHTRIYA RIFLES
110. 5248796 RIFLEMAN RAJESH GURUNG, 3/3 GORKHA RIFLES (POSTHUMOUS)
111. 13756363 RIFLEMAN KEWAL SINGH, 15 JAMMU & KASHMIR RIFLES
112. 14424199 GUNNER VINOD KUMAR  
ARTILLERY/17 RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)
113. 15144630 GUNNER KULBIR SINGH, ARTILLERY/12 MLI (POSTHUMOUS)
114. 15769456 GUNNER KRISHNA KANT  
AIR DEFENCE ARTY/20 RASHTRIYA RIFLES
115. 13698698 GUARDSMAN VINOD KUMAR S  
GUARDS/21 RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)
116. 15611521 GUARDSMAN PRABHAT CHANDRA ENGT, 13 GUARDS



(BARUN MITRA)  
DIRECTOR

No. 31—Pres/2004 - The President is pleased to approve the award of the "Nao Sena Medal/Navy Medal" to the undermentioned personnel for the acts of exceptional courage:-

1. COMMANDER SHOUKATHALI SHEIKH (02770-W)
2. COMMANDER UMED SINGH CHARAN (03104-B)
3. KUNNUPURATH RAMAN BIJU, PO CD I, (172828-T)
4. HIMMAT SINGH, LSCD II, (116578-A)
5. BHAUSAHEB GANPATI POWAR,  
LS CD I (179869-W) (POSTHUMOUS)



(BARUN MITRA)  
DIRECTOR

No. 32—Pres/2004 - The President is pleased to approve the award of the "Vayu Sena Medal/Air Force Medal" to the undermentioned personnel for the acts of exceptional courage:-

1. SQUADRON LEADER SANJEEV KUMAR BHATNAGAR (18838)  
FLYING (PILOT)
2. SQUADRON LEADER NARESH BHALERAO (22908)  
FLYING (PILOT)



(BARUN MITRA)  
DIRECTOR



No. 33—Pres/2004 - The President is pleased to approve the award of the "Sena Medal/Army Medal" to the undermentioned personnel for the acts of exceptional devotion to duty:-

1. IC-25469 BRIGADIER KARAN SINGH YADAVA, VSM,  
4/3 GORKHA RIFLES/HQ 6 SECTOR RASHTRIYA RIFLES
2. IC-25838 BRIGADIER ANIL KUMAR CHOPRA  
ARMY ORDINANCE CORPS/CMM JABALPUR
3. IC-27204 BRIGADIER VIJAY KUMAR SHARMA  
PUNJAB/HQ 268 INFANTRY BRIGADE
4. IC-27231 BRIGADIER JAY VIBHAV KONNUR  
RAJPUTANA RIFLES/HQ 121 (I) INFANTRY BRIGADE
5. IC-27325 BRIGADIER RAJESH KOCHHAR, VSM,  
CORPS OF ELECTRONICS & MECHANICAL ENGINEERS
6. IC-27686 BRIGADIER KAMAKHYA PRASAD DAS,  
MAHAR/HQ 56 MOUNTAIN BRIGADE
7. IC-27793 BRIGADIER JATINDER SINGH  
GUARDS/HQ 107 MOUNTAIN BRIGADE
8. IC-30085 BRIGADIER JAG DARSHAN SINGH RAWAT, INTELLIGENCE CORPS
9. IC-32716 BRIGADIER PRAKASH CHANDRA SINGH KHATI, VrC,  
1 GORKHA RIFLES/HQ 163 INFANTRY BRIGADE
10. MR-02838 BRIGADIER OOMMAN PAUL MATHEW,  
ARMY MEDICAL CORPS/MH JALLANDHAR CANTT
11. IC-30339 COLONEL KIRAN KUMAR DANGWAL  
ENGINEERS/TRAINING CENTRE, NATIONAL SECURITY GUARDS
12. IC-34515 COLONEL TEJINDER SINGH GILL, VSM,  
ARMY AVIATION/606 ARMY ACQUISITION SQUADRON(R&O)
13. IC-35122 COLONEL BALWANT SINGH CHAUHAN,  
KUMAON/HQ 21 MOUNTAIN DIVISION
14. IC-35933 COLONEL ANUP DHAR, 10 JAMMU & KASHMIR LIGHT INFANTRY

15. IC-37647 COLONEL KULWANT SINGH, VSM  
INTELLIGENCE CORPS/CENTRAL COMMAND LIAISON UNIT
16. IC-37813 COLONEL VINOD KUMAR ADAPPA, 3 SIKH
17. IC-38007 COLONEL ASSADULLAH KHAN, 15 JAMMU & KASHMIR RIFLES
18. IC-38440 COLONEL SAGAR SINGH, 5 BIHAR
19. IC- 39875 COLONEL GURDEEP SINGH BAINS, VSM,  
2 PARA (SPECIAL FORCES)
20. IC-401S1 COLONEL RANJIT SINGH, RAJPUT/10 RASHTRIYA RIFLES
21. IC-40235 COLONEL GOPAL R, 2/8 GORKHA RIFLES
22. IC-40366 COLONEL ANAND SINGH RAWAT, 15 SIKH LIGHT INFANTRY
23. IC-40777 COLONEL MANVENDRA SINGH JASWAL,  
RAJPUTANA RIFLES/18 RASHTRIYA RIFLES
24. IC-40796 COLONEL RAJVINDER PAL SINGH SANDHU, JAT/34 RASHTRIYA RIFLES
25. V-346 COLONEL SHRIKANT SHARMA, REMOUNT AND VETRINARY CORPS
26. MR-03440 COLONEL AVTAR SINGH BATH  
ARMY MEDICAL CORPS/ARMY HOSPITAL (R&R)
27. MR-03703 COLONEL VIRENDAR KUMAR BATISH,  
ARMY MEDICAL CORPS/COMMAND HOSPITAL, HQ WC
28. IC-41948 LIEUTENANT COLONEL HASMUKH PATEL,  
INTELLIGENCE CORPS/615 INT & FS UNIT
29. IC-43771 LIEUTENANT COLONEL S MOHAN, AIR DEFENCE ARTILLERY
30. SL-2742 LIEUTENANT COLONEL PUTHIYA KOVILAKATH MURALIDHARAN RAJA,  
ARMY PHYSICAL TRAINING CORPS
31. IC-42862 MAJOR YASHPAL SINGH MOR, GUARDS/36 RASHTRIYA RIFLES
32. IC-45910 MAJOR RAJNEESH KACKER, ARMOURED CORPS
33. IC-46658 MAJOR PARVEEN KUMAR,  
ENGINEERS/116 ROAD CONSTRUCTION COMPANY(GREF)
34. IC-51263 MAJOR RAJESH KUMAR TYAGI  
ARMY ORDINANCE CORPS/4 INFANTRY DIVISION ORDINANCE UNIT
35. IC-51945 MAJOR RAJIV KUMAR DAHIYA, SC  
SIKH/16 RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)

36. IC-54238 MAJOR PRAWEEEN KUMAR PANDEY, 9 MAHAR
37. IC-56938 MAJOR SARIT PRAKASH, 7/11 GORKHA RIFLES
38. IC-54472 CAPTAIN NAVDEEP SINGH SANDHU  
DOGRA/5 DET WESTERN COMMAND LIAISON UNIT
39. IC-56853 CAPTAIN IRFAN GILBERT COLLINSON,  
GUARDS/3 LADAKH SCOUTS
40. IC-57467 CAPTAIN AMIT KUMAR CHANDAN, 21 GRENADIERS (POSTHUMOUS)
41. IC-60177 LIEUTENANT ASWINI KUMAR SHARMA, 237 ENGINEER REGIMENT
42. SC-00347 LIEUTENANT RAMKRUSHNA RANGRAO WAGH,  
ARMY ORDANANCE CORPS/ 9 DOGRA
43. JC-691939 SUBEDAR SHYAM KISHORE JAISWAL,  
ARMY MEDICAL CORPS/405 FIELD AMBULANCE (POSTHUMOUS)
44. 3177543 HAVILDAR KALLA RAM, 7 JAT
45. 4185082 NAIK ANAND SINGH, KUMAON/KUMAON SCOUTS
46. 4190094 LANCE NAIK RAJESH JOSHI  
PARA/HIGH ALTITUDE WARFARE SCHOOL
47. 15339803 SAPPER KENDER PAL, 237 ENGINEER REGIMENT



(BARUN MITRA)  
DIRECTOR

No. 34—Pres/2004 - The President is pleased to approve the award of the "**Nao Sena Medal/Navy Medal**" to the undermentioned personnel for the acts of exceptional devotion to duty:-

1. COMMODORE ELAYAPPA GOUNDAR GOVINDAN (50283-B) (RETD)
2. COMMODORE MUTTATHIL PUTHANVEETIL MURALIDHARAN (01587-F)
3. CAPTAIN ANIL KUMAR CHAWLA, (02312-B)
4. CAPTAIN NAMBURI KRISHNA RAO (40672-K)
5. CAPTAIN KRISHNAN NAIR MOHANDAS (01834-T)
6. COMMANDER SUKHDEV SINGH VIRK(01718-B)
7. COMMANDER SUNIL JAIN (40912-F)
8. COMMANDER JAIVEER SINGH MALIK(02479-H)
9. COMMANDER VIDYUT KAK (50914-N)
10. COMMANDER THOPPIL VERGHESE THOMAS (41040-Y)
11. COMMANDER MAHENDRA VEER SINGH NEGI (03275-T)
12. COMMANDER (TS) SHALABH NIRMAL CHANDRA SRIVASTAVA (02698-F)



(BARUN MITRA)  
DIRECTOR

No. 35—Pres/2004 - The President is pleased to approve the award of the "Vayu Sena Medal/Air Force Medal" to the undermentioned personnel for the acts of exceptional devotion to duty:-

1. GROUP CAPTAIN NARINDER KUMAR BHOAN VSM (14312)  
AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
2. GROUP CAPTAIN RAJU STEPHEN (14689) FLYING (PILOT)
3. GROUP CAPTAIN NASIB SINGH KADIAN (15025) FLYING (PILOT)
4. GROUP CAPTAIN CODANDA CHITRAJIT CARIAPA (15038) FLYING (PILOT)
5. GROUP CAPTAIN ASHOK LAL (16031) FLYING (PILOT)
6. GROUP CAPTAIN MATHEWS MAMMEN (16618) FLYING (PILOT)
7. WING COMMANDER ASHWANI KUMAR NABH (16608) FLYING (PILOT)
8. WING COMMANDER SHARAD TEWARI (16616) FLYING (PILOT)
9. WING COMMANDER PRASHANT NAGARAJA KAUSHIK (16783) FLYING (PILOT)
10. WING COMMANDER MICHAEL FERNANDEZ (16967) FLYING (PILOT)
11. WING COMMANDER VIVEK RAM CHAUDHARI (16978) FLYING (PILOT)
12. WING COMMANDER BABU GUTTIKONDA AMAR PRASAD (17714)  
FLYING (PILOT)
13. WING COMMANDER MAYENK TEWARI (17719) FLYING (PILOT)
14. SQUADRON LEADER GOPINATH GIRISH KUMAR (20179) FLYING (PILOT)



(BARUN MITRA)  
DIRECTOR

No.36–Pres/2004 - The President is pleased to give orders for publication in the Gazette of India of the names of the undermentioned officers/personnel for "Mention in Despatches" received by the **Raksha Mantri** from the "Chief of the Army Staff" in connection with the "OPERATION PARAKRAM":-

**OPERATION PARAKRAM**

1. IC-47897 MAJ VISHWANATH, 16 KUMAON
2. IC-50463 MAJ ISHWAR SINGH THAPA, SM, 4 MLI
3. IC-54452 MAJ NV NANJUDESHWARA, ARTY, 321 FD REGT
4. IC-57385 MAJ HITESH KUMAR DHANKHAR, 10 JAK LI
5. 19208 SQN LDR INDRANIL BHATTACHARYA, 130 HELICOPTER UNIT, 17 RR
6. IC-59192 CAPT SANDEEP SINGH RANDHAWA, ASC, 18 MADRAS
7. 24539 FLT LT NIKUNJ MOHAN ARORA, 130 HELICOPTER UNIT, 17 RR
8. IC-61929 LT RAJESH KUMAR, 4 MLI
9. SS-39022 LT AHMER IQBAL, ARTY, 318 FD REGT
10. JC-489090 NB SUB JAGDISH KUMAR, 19 JAT
11. 3176570 HAV SUKHBIR SINGH, 7 JAT
12. 9085307 HAV MOHAMMED IQBAL, 10 JAK LI
13. 9088536 HAV MOHD SADIQ, 13 JAK LI
14. 9415504 HAV LUMBA DHOJ RAI, 6/11 GR
15. 2883853 NK LAQUIT ALI, 6 RAJ RIF
16. 2601583 L/NK BALA MASTAN REDDY ASADI, 18 MADRAS
17. 9096149 L/NK JANKAR CHAND, 13 JAK LI
18. 3391326 SEP BALWINDER SINGH, 10 SIKH
19. 9421080 RFN DAMBAR BAHADUR CHEMJONG, 6/11 GR
20. 15562385 SPR PRAVEEN DASHRATH SHIRKE, 103 ENGR REGT



**(BARUN MITRA)**  
**DIRECTOR**

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT  
(DEPARTMENT OF SECONDARY & HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 16th February 2004

No. F.-9-49/2001-U.3—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), the Central Government, on the advice of the University Grants Commission, hereby declare Kalinga Institute of Industrial Technology, Bhubaneswar, Orissa as Deemed to be University for the purpose of the aforesaid Act with immediate effect subject to a review after five years.

RAVI MATHUR  
Jt. Secy.

The 20th February 2004

No. F.9-1/2001-U.3—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), the Central Government, on the advice of the University Grants Commission, hereby declare the Mody Institute of Education and Research, Lakshmangarh, Rajasthan comprising of following two institutions as Deemed to be University for the purpose of the aforesaid Act with immediate effect subject to a review after five years :

- (i) Mody College of Engineering & Technology; and
- (ii) Mody College of Management Studies.

RAVI MATHUR  
Jt. Secy.

The 31st March 2004

No. F.9-5/2002-U.3— In exercise of the powers conferred by Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), the Central Government, on the advice of the University Grants Commission, hereby declares Meenakshi Academy of Higher Education and Research, Chennai as Deemed to be University for the purpose of the aforesaid Act with immediate effect.

RAVI MATHUR  
Jt. Secy.